Postal Regn No./C.G./RYP DN/48/2022-24 website- www.dvpnews.in रायपुर (छ.ग.) एवं झांसी (उ.प्र.) से एक साथ प्रकाशित राष्ट्रीय हिन्दी पत्र

दैनिक विश्व परिवार

● अंक : 257 ● वर्ष : 11 ● रायपुर, मंगलवार 09 अप्रैल 2024 ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 3 रूपए ● संस्थापक : कीर्तिशेष- श्री कैलाश चन्द्र जैन

सुविचार

धर्म को मूल मंत्र है,झूठ से बचो।

The basic advice of religion is to escape from lie.

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज

प्रधानमंत्री ने बस्तर जिले के आमाबाल में चुनावी जनसभा को किया संबोधित

जब तक गरीब की चिंता दूर नहीं करूंगा चैन से नहीं बैठूंगा : मोदी

- बस्तर से पीएम नरेन्द्र मोदी की दहाड़, कहा- 'लाठी से सिर फोड़ने की कांग्रेस की धमकी से मैं नहीं डरने वाला'
- देश का गरीब कह रहा है, खर्च कम बचत बार-बार, फिर एक बार मोदी सरकार : प्रधानमंत्री मोदी
- हमारा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है, हर परिवार को समृद्ध बनाना है

रायपुर (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प शंखनाद रैली में सोमवार को हुँकार भरते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मोदी गरीब का बेटा है सिर ऊँचा करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। गरीबों को जिन्होंने लूटा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कोई घर में घुस आए और लूटपाट करने लगे तो परिवार का हर सदस्य भिड़ जाता है और मोदी के लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार। प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर की धरती पर भानपुरी विधानसभा क्षेत्र स्थित स्व. बलीराम कश्यप के ग्राम आमाबाल में भाजपा की महती चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की रक्षा देश के करोड़ों लोग करेंगे। हमने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, बिचैलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार किया। यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया, उनकी जांच चल रही है। अपने देश को अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ और कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी बचाओ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बस्तर जिले के भानपुरी से लगे आमाबाल गांव में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी का मंच पर मोटा अनाज से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने माँ दंतेश्वरी की जय के नारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंच से बलिराम कश्यप को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां मैं और बलिराम जी ने दौरा नहीं किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम न गए हो। जो पुरुषार्थ हमने किया, उसका ही आज परिणाम है। आदिवासी कल्याण के लिए बलिराम जी के साथ हमेशा बहुत कुछ करने के लिए प्रयास करते रहते थे, कोई कमी नहीं रहने देते थे। बस्तर ने मुझे और भाजपा को हमेशा आशीर्वाद दिया। मैं आपके बीच आया हूं पिछले दस साल में देश ने प्रगति की है मैं आपका आभार व्यक्त करने आया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बस्तर के लोगों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है इसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार।

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीब की कभी चिंता नहीं की, मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक-एक करके योजनाएं बनाईं, गरीब को उसका हक दिया। सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। मोदी ने 11 हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं। उन पर 80 प्रतिशत छूट के साथ दवाएं मिलती हैं। इससे गरीबों को 30 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसलिए ही आज देश का गरीब कह रहा है कि खर्च कम कराए, बचत बढ़ाए बार-बार, फिर एक बार मोदी सरकार।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के अमीरों की सरकार के समय देश में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे। मोदी ने कहा कि मैं अपने देश के हर गरीब के साथ खड़ा हूं। मैं गरीबों को मुफ्त वैक्सीन भी दूंगा...मैं गरीबों को मुफ्त राशन भी दूंगा। ऐसे समय में जब दूसरे देशों में कोरोना का एक-एक टीका हजारों रुपए में लग रहा था, मोदी ने आपको मुफ्त टीका लगवाया। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। पिछले 10 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है। देश ने कितनी प्रगति की है और उसमें आप सबका जो साथ मिला है, मैं उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करने भी आया हूं। आप लोगों ने यहां सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी मजबूत की है। -शेष पेज 2 पर

आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसके लिए भाजपा और अटलजी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया : विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ भारत रत्न श्रद्धेय अटलजी की देन है, भाजपा की देन है। आदिवासियों का समुचित विकास हो, इसके लिए भाजपा और अटलजी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। भाजपा ने ही राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी समाज का सम्मान किया है। छत्तीसगढ़ और बस्तर से प्रधानमंत्री श्री मोदी का लगातार लगाव बना हुआ है। बस्तर से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई जिसके कारण आज पूरा देश आयुष्मान भारत योजना के लाभ से लाभान्वित हो रहा है। वन धन केंद्र जाकर छत्तीसगढ़ के वनवासी 100 से अधिक प्रकार के वनोपज का संस्करण कर रहे हैं। आज नगरनार स्टील प्लांट की सौगात छत्तीसगढ़ को देने वाले श्री मोदी ही हैं। श्री साय ने कहा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन ने विश्वास करते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा को जिताया और भाजपा की सरकार बनाई है। प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री साय ने कहा कि तीन महीनों की अल्पावधि में मोदी की गारंटी को पूरा करने में उनकी सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार बनने के बाद पहला काम प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे कांग्रेस की सरकार ने रोक रखा था, उसकी स्वीकृति पहली कैबिनेट बैठक में दे दी गई। 2 वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान 25 दिसंबर को कर दिया गया। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की शुरुआत भाजपा ने की और रिकॉर्ड खरीदी की।

राहुल गांधी ने सिवनी की चुनावी सभा में आदिवासी समुदाय को किया संबोधित, बीजेपी पर साधा निशाना

सिवनी (एएनआई)। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे है वैसे ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को मंडला सहित 6 सीटों पर होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने अभियान के लिए केंद्रीय नेताओं को तैनात किया है, जिसकी कमान खुद राहुल गांधी संभाल रहे हैं। सोमवार यानी 8 अप्रैल को राहुल सिवनी जिले पहुंचे।

राहुल ने यहां आदिवासी समुदाय का धन्यवाद किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और BJP-RSS के लोग आपको वनवासी कहते हैं। इन शब्दों के अलग-अलग मायने हैं। आदिवासी शब्द का मतलब- जो इस देश के पहले मालिक हैं, जिनका जल-जंगल-जमीन पर पहला आधिकार है। वनवासी शब्द का मतलब- वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब आप लोगों का जल-जंगल-जमीन पर कोई आधिकार नहीं है।

राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि देश में आदिवासियों की 8 प्रतिशत आबादी है। लेकिन, जब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों, मीडिया, कॉर्पोरेट कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में देखेंगे तो वहां आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान को सिर्फ 90 अफसर चलाते हैं, जिनमें सिर्फ 1 अफसर आदिवासी है। ये देश में आपकी भागीदारी है।

भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा था। और ये लोग उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर रहे हैं। ये इनकी विचारधारा है, ये इनकी सोच है।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि आदिवासियों को उनका अधिकार देने के लिए हम पेसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण और ट्राइबल बिल लाए। इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस की सरकारों ने आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दी और उसका हक आपको दिया। लेकिन, बीजेपी को जहां भी मौका मिलता है, आपकी जमीन छीनकर अडानी जैसे अरबपतियों के हवाले कर देती है। वहीं, जब आदिवासी युवा बीजेपी से रोजगार और शिक्षा पर सवाल करता है, तो उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है।

आईजीआई एयरपोर्ट को परमाणु बम से उड़ाने की दी धमकी, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले दो यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि 5 अप्रैल को दिल्ली के द्धत्नद्ध एयरपोर्ट पर फ्लाइट में चढ़ने से पहले यात्रियों की तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान दो यात्रियों ने सिक्योरिटी स्टाफ को एयरपोर्ट को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दी।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि एयरपोर्ट पर धमाके की धमकी देने के आरोप में दोनों यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आगे बताया कि दोनों के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में धारा 182/505(1)बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इससे पहले दिसंबर 2023 में एक फोन कॉल के जरिए द्धत्नद्ध एयपोर्ट और पहाड़गंज को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह फोन कॉल दिल्ली पुलिस को मिली थी। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है।

लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सीए की परीक्षा टालने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है। सीए के 27 परीक्षार्थियों ने याचिका दायर कर चुनाव की तारीखों के साथ टकराव से बचने के लिए परीक्षा मई के बदले जून में कराने का प्रस्ताव दिया था।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई तार्किक चिंताओं के कारण परीक्षा को बाधित करने का कोई ठोस कारण नहीं पाया। परीक्षा में लगभग 4,26,000 उम्मीदवारों के शामिल होने का अनुमान है। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने 7 मई और 13 मई की विशिष्ट चुनाव तारीखों का हवाला देते हुए कहा कि परीक्षा कार्यक्रम जानबूझकर इन तारीखों से अलग रखा गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप न हो। इसके अलावा, अदालत ने उम्मीदवारों के मतदान अधिकारों में किसी भी बाधा को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए सक्रिय उपायों पर टिप्पणी की, और अंततः याचिका को 'योग्यता में कमी' का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पुनर्निर्धारण की व्यवहार्यता के खिलाफ तर्क दिया और बताया कि इससे परीक्षा समय सारिणी में व्यापक गड़बड़ी होगी। यह आश्वासन भी दिया गया कि मतदान की तारीखों के साथ किसी भी टकराव से बचने के लिए परीक्षाएं सोच-समझकर निर्धारित की गईं।

पुलिस ने धरने पर बैठे सांसदों को लिया हिरासत में...

चुनाव आयोग : लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर चुनाव आयोग एक्शन मोड में है। आदर्श आचार संहिता को लेकर कई बड़े नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। चुनाव आयोग की फुल बेंच से मुलाकात करने वाले 10 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, साकेत गोखले और सागरिका घोष समेत अन्य शामिल हैं. पुलिस ने धरने पर बैठे सांसदों को हटाने का प्रयास किया और सभी को हिरासत में ले लिया।

आप सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, पीएम मोदी की डिग्री मामले में याचिका खारिज

नई दिल्ली (आरएनएस)। तिहाड़ जेल से बाहर आए आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। यह पीएम मोदी डिग्री से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले में 'आप' सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी मानहानि समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा जारी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

गुजरात हाई कोर्ट ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पीएम मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।

उत्तराखंड में पीएम मोदी की दूसरी रैली 11 अप्रैल को ऋषिकेश में, तैयारियां जोरों पर

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड में जनसभा करने आ रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वाल की जनता को संबोधित करेंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव है। इसके लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक अब मैदान संभाले हुए हैं। दो अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी जनसभा हुई थी। अब 11 अप्रैल को ऋषिकेश में पीएम मोदी की दूसरी चुनावी रैली होने जा रही है।

बिना फैसले के केसों को रिजर्व रखना गलत : सीजेआई चंद्रचूड़

नई दिल्ली (आरएनएस)। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालती मामलों को महीनों आरक्षित रखने के जजों के रवैये पर नाराजगी जताई है। सीजेआई ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जज बिना फैसला सुनाए किसी केस को 10 महीनों से ज्यादा समय तक रिजर्व रखते हैं। यह चिंता का विषय है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दो टूक कहा कि ईमानदारी से कहूं तो इतने समय के बाद मौखिक दलीलें मायने नहीं रखती हैं। कोर्ट की सुनवाई और फैसलों पर रिपोर्ट करने वाली 'बार एंड बेंच' के अनुसार, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, चिंता का विषय यह है कि जज बिना फैसलों के 10 महीने से अधिक समय तक मामलों को रिजर्व रखते हैं। मैंने सभी हाई कोर्ट को लिखा है। लेटर के बाद मैंने देखा है कि कई जज केवल मामलों को रिजर्व कर रहे हैं और सूचीबद्ध कर रहे हैं। इसके अलावा, आंशिक सुनवाई भी कर रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो इतने लंबे समय के बाद मौखिक दलीलें मायने नहीं रखतीं और जज भूल जाते हैं।

बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को चुनाव तैयारी में तेजी लाने के निर्देश दिए

रायपुर (विश्व परिवार)। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दिए इसी क्रम में रविवार को रायपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी वरिष्ठ मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय में क्षेत्र की सभी 9 विधानसभाओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं से संवाद किया।

बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से चुनाव कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि अब मतदान में एक महीने से भी काम का समय बचा है ऐसे में कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से चुनावी मैदान में कूदते हुए अपने कार्यों में तेजी लानी होगी। कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जोर दें। जिससे भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यों को जनता के बीच में सही ढंग से पहुंचाया जा सके। बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत आप कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। इस बार इस बार लोकसभा चुनाव में एक बार फिर आपको कड़ी मेहनत करते हुए मोदी जी के सपने को पूरा करना है और दिल्ली में रायपुर का डंका बजाना है। आप लोग मतदाता सूची का भी सही से परीक्षण करिए जिससे कोई भी मतदाता अपने वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए। कार्यकर्ताओं ने भी बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा में रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी, विधायक पुरंदर मिश्रा0विधायक इंद्रकुमार, पूर्व विधायक शिव रतन शर्मा, संजय श्रीवास्तव, अशोक बजाज, सनम जांगड़े, लक्ष्मी वर्मा समेत पार्टी के वरिष्ठ जन भी उपस्थित रहे।

भगवान श्री महावीर स्वामी के 2623 वाँ जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में

श्री दिगम्बर जैन महासमिति
''छत्तीसगढ़ अंचल'' महिला विंग, रायपुर

दिनांक : 09 अप्रैल 2024, मंगलवार

भोजन वितरण
दोपहर 1 बजे से
स्थान : मालवीय रोड, जैन मंदिर

स्टेशनरी वितरण
दोपहर 3.30 बजे से
स्थान : एस.ओ.एस. संस्थान

:: आयोजक गण ::
अध्यक्ष श्रीमती जया जैन
सचिव श्रीमती संध्या जैन
कोषाध्यक्ष श्रीमती दीप्ती जैन
उपाध्यक्ष श्रीमती मेघना जैन, श्रीमती मंजु मोदी

:: सहयोगकर्ता ::
श्रीमती रोहिता जैन, श्रीमती शालू जैन, श्रीमती मीता जैन, श्रीमती सौम्या जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती अल्का जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती ममता जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती अमिता जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्रीमती नेहा जैन, श्रीमती शिखा जैन, श्रीमती मयुरी जैन, श्रीमती रूपाली जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्रीमती सिल्की जैन, श्रीमती मेघा जैन

संक्षिप्त समाचार

डॉ. भीमराम अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति का आयोजन 14 को

रायपुर (आरएनएस)। डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर सार्वजनिक समारोह समिति 14 को विशाल आयोजन डॉ. अंबेडकर चौक में करेगी। समारोह के मुख्य अतिथि छग के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरूण साव केबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, ओपी चौधरी, दयाल दास बघेल, राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा पूर्व विधायक विकास उपाध्याय महापौर एजाज ढेबर, विशिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में बीएस जागृत प्रकाश रामटेके, दिलीप वासनिकर, संयोजक होंगे अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शशांक ढाबरे करेंगे। उक्त जानकारी प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में वार्ताकारों ने दी। शशांक ने पत्रकारवार्ता में बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 11 अप्रैल तक होगा। बैडमिंटन प्रतियोगिता 6 से 8 अप्रेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम 9 अप्रैल, धम्म देशना 10 अप्रैल, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती 11 अप्रैल, महिला सम्मलेन 12 अप्रैल बाईक रैली 13 अप्रैल सुबह 11 युवा सम्मेलन शाम 6 बजे एवं 14 अप्रैल को मुख्य कार्यक्र म सुबह 9 से रात 10 बजे तक चलेंगे। उक्त आयोजन में समाज की 7 से 8 हजार अनुयायी शामिल होंगे।

सेवा पथ संस्था प्रदेश में पहली बार 501 बहराणा साहेब महाआयोजन करेगी 9 को

रायपुर (आरएनएस)। सिंधी समाज के घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले बहराणा साहेब निकाला जाता है। इस वर्ष राजधानी रायपुर में पहली बार परमपुज्नीय लाल दास सांई के नेतृत्व में 501 बहराणा साहेब का महाआयोजन 9 अप्रैल को निकाला जाएगा। उक्त जानकारी प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में आयोजन राजा बजाज दिलीप बजाज एवं अन्य ने दी।

रक्षित केंद्र राजनांदगांव में एसपी मोहित गर्ग द्वारा तीरंदाजी प्रशिक्षण कैंप का शुभारंभ

राजनांदगांव-रायपुर (आरएनएस)। रक्षित केंद्र राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा तीरंदाजी प्रशिक्षण कैंप का शुभारंभ किया गया। तीरंदाजी सीखने के इच्छुक बच्चों को प्रशिक्षण व जरूरी संसाधन मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण कैंप की शुरुआत की गई है। अनुभवी प्रशिक्षक द्वारा इच्छुक बच्चों को मुक्त में तीरंदाजी के गुर सिखाएंगे। तीरंदाजी को बढ़ावा देने व इससे जुड़े खिलाड़ियों के संवर्धन के लिए विगत वर्षों से राजनांदगांव पुलिस द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसपी गर्ग ने कहा कि बच्चे खूब मेहनत और लगन से यह प्रशिक्षण ले। जिला एवं राज्य स्तर पर अपना नाम रोशन करें बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हम निरंतर बच्चों को जो भी सहयोग चाहिए मुहैया करवाते रहेंगे। इसी प्रकार पुलिस भर्ती आर्मी तथा अग्निवीर भर्ती के लिए राजनांदगांव पुलिस द्वारा निःशुल्क का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान रक्षित केंद्र राजनांदगांव निरीक्षक अरविंद साहू व पुलिस अधिकारी/कर्मचारी एवं प्रशिक्षणरत बच्चे उपस्थित थे।

बैरन बाज़ार स्थित अल-फ़लाह टावर में रमज़ान की 27वी शब को तरावीह में कुरआन मुकम्मल हुआ

रायपुर (विश्व परिवार)। रमज़ान के पवित्र महीने में हर रोज़ तरावीह का एहतेमाम किया जाता है जिस में कुरआन पढ़ा जाता है

जो आज 27 वी शब को मुकम्मल(पूरा) हुआ। तरावीह जनाब हाफीज अर्मुगा़न साहब ने अच्छी की़रत के साथ पढ़ाई और देश में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की, और सभी लोगों को आने वाली ईद की मुबारकबाद पेश की। उसके बाद जनाब मुफ्ती हाफिज़ अतियब अहमद साहब ने तकरीर में रमजा़न के रोज़े की अहमियत और कुरआन सभी मुसलमान को समझ कर पढ़ने और उसे पर अमल करने की हिदायत थी, उन्होंने कहा यह कुरआन रमज़ान के पवित्र महीने में ईश्वर द्वारा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़िल (उतरा) गया है इस कुरआन की आयतों पर अमल करके एक अच्छा इंसान बनने के साथ समाज की बुराइयों को दूर करके बेहतर समाज बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सभी से कुरआन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैही वसल्लम के निर्देशों को पालन करने की अपील की। अंत में रोज़ाना जो बच्चे तरावीह की नमाज़ पढ़ने आ रहे थे उनको इनामात (गिफ्ट) देकर उनकी हौसला अफजाई की गई।

लोकसभा निर्वाचन 2024 : राजनैतिक दलों के मध्य हुआ ईवीएम एवं वीवी पैट का रेण्डमाईजेशन

रायपुर (विश्व परिवार)। लोकसभा निर्वाचन हेतु रायपुर ज़िला के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष ईवीएम एवं वीवी पैट मशीनों का आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में प्रथम रेण्डमाईजेशन किया गया। रेण्डमाईजेशन के पश्चात फाईनालाईज्ड किए गये ईवीएम बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवी पैट मशीन में उल्लेख आईडी नंबर सहित सूची राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया हेतु सभी दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे सूची के आधार पर ईवीएम बैलेट एवं कंट्रोल यूनिट, वीवी पैट का मिलान स्ट्रॉंग रूम में विधानसभावार रखते समय कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभावार मशीनों का प्रथम रेण्डमाईजेशन कर लिया गया है। रेण्डमाईजेशन पश्चात मशीनों को स्ट्रॉंग रूम में विधानसभा के अनुसार सुरक्षित रखवाया जाएगा।

गौरतलब है कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष ईवीएम एवं वीवी पैट मशीनों का रेण्डमाईजेशन किया जाता है। रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया में रायपुर ज़िले के अंतर्गत कुल 1797 मतदान केंद्र है। इस से 20 प्रतिशत बैलेट एवं कंट्रोल यूनिट तथा 30 प्रतिशत वीवी पैट मशीनों का चयन किया गया।356 बैलेट यूनिट, 356 कंट्रोल यूनिट और 535 वीवी पैट एफएलसी ओके मशीनों का रेण्डमाईजेशन किया गया।

मतदान केंद्रों में ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का उपयोग करने के पहले पारदर्शिता के लिए विभिन्न चरणों में मशीनों का रेंडमाइजेशन किया जाता है। आज मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में किया गया। रेंडमाइजेशन के बाद इसका प्रिंट निकालकर सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से हस्ताक्षर कराने के बाद उन्हे इसकी प्रतिया प्रदान की गई।इस अवसर पर ज़िला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमशंकर बंदे, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

शराब घोटाले मामले में अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को तीन दिनों की रिमांड

रायपुर (आरएनएस)। शराब घोटाले मामले में एसीबी/इओडब्ल्यू ने अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को कोर्ट ने 12 अप्रैल तक एसीबी/ इओडब्ल्यू की रिमांड पर भेजा है। दोनों आरोपियों को सोमवार को तीन दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था।

बता दें कि अनवर ढेबर और अरविंद सिंह की रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में पेश किया गया था। जहां शराब घोटाले मामले में कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह की रिमांड मंजूर की है। छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले मामले में इओडब्ल्यू ने कारोबारी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह को सोमवार को कोर्ट में पेश किया। दोनों की रिमांड अवधि पूरी होने पर उन्हें कोर्ट लाया गया है। इस दौरान इओडब्ल्यू की ओर से दोनों की रिमांड बढ़ाने को लेकर पक्ष रखा। जिसपर कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड मंजूर कर ली। जानकारी के अनुसार पिछले तीन दिनों की पूछताछ ने इओडब्ल्यू को दोनों से कोई जानकारी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि ढेबर और अरविंद से पूछताछ में इओडब्ल्यू को कुछ हासिल नही हो रहा है। दोनों आरोपी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका एक ही जवाब होता है कि उन्हें जानकारी नहीं है या वे ईडी को पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने अरविंद सिंह और ढेबर को आमने-सामने बिठाकर भी पूछताछ की है, लेकिन कोई नई जानकारी हाथ नहीं लगी। फिलहाल इओडब्ल्यू ने तीन दिन की और रिमांड ली है जिसमें दोनों से फिर से पुछताछ की जाएगी।

लोकतंत्र को मजबूत करने सभी मतदाता मतदान जरूर करें : कलेक्टर

कवर्धा (आरएनएस)। भोरमदेव महोत्सव 2024 के समापन अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे ने लोकसभा निर्वाचन के लिए 26 अप्रैल को मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करके लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की। उन्होंने महोत्सव में उपस्थित सभी लोगों को मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुषपेन्द्र बघेल, अपर कलेक्टर अविनाश भोई सहित अधिकारी उपस्थित थे। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र-06 के जिले में लोकसभा निर्वाचन में शत शत-प्रतिशत मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

यात्री बस से बरामद हुआ 16 लाख 90 हजार रूपये नगद

रायपुर (आरएनएस)। जिले की मंदिर हसौद थाना पुलिस तथा एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की संयुक्त टीम ने सोमवार को यात्री बस से एक यात्री के पास से 16 लाख 90 हजार रूपये नगद बरामद किया है। रूपयों के बारे में कोई दस्तावेज नही होनें के बाद पुलिस की टीम ने रूपये जब्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु इनकम टैक्स विभाग रायपुर के सुपुर्द कर दिया।

बता दें कि अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार जिला रायपुर के समस्त थाना क्षेत्रों में समस्त प्रकार के वाहनों सहित संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार चेकिंग की जा रही है।

इसी तारतम्य में दिनांक सोमवार 8 अप्रेल को थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत स्थित टोल नाका के पास थाना मंदिर हसौद पुलिस एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की संयुक्त टीम द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक यात्री बस को चेक करने पर एक यात्री के पास बैग में नगदी रकम रखा होना पाया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा यात्री से नगदी रकम के संबंध में पूछताछ करने एवं वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा गोलमोल जवाब देते हुए नगदी रकम के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा यात्री के कब्जे से नगदी रकम 16 लाख 90 हजार रूपये को थाना मंदिर हसौद में जप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु इनकम टैक्स विभाग रायपुर के सुपुर्द किया गया।

पुलिस ने 58 प्रकरणों में 21,000 का वसूला जुर्माना

राजनांदगांव-रायपुर (आरएनएस)। आगामी लोकसभा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिये पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) मुकेश ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों एवं यातायात शाखा को निर्देश दिया गया है की अपने अपने थाना क्षेत्रों में एमसीपी लगाकर संदिग्ध लोगों पर नजर बनाये रखने और सघनता व सतर्कता के साथ वाहन चेकिंग करने, शराब, मादक पदार्थों व अन्य सामग्रियों पर रोकथाम करने तथा कानून- व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाये रखने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया था। जिसके तहत् ओपी मोहरा, सुरगी एवं थाना यातायात पुलिस द्वारा दिनांक 07/04/2024 को आने जाने वाले संदिग्ध, वाहन, वस्तु व्यक्ति की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो के कुल 58 प्रकरण में 21,000/-रूपये समंस शुल्क कर उनके विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर यातायात नियमों का पालन करने हेतु लोगों को जागरूक भी किया गया। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

जब तक गरीब की चिंता दूर नहीं करूंगा चैन से... पेज-01 का शेष

अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है- गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उसकी परेशानियों को नहीं समझा। कांग्रेस परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया।

इससे पहले रैली को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश किरण देव सिंह ने कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात होती है तो छत्तीसगढ़ के विकास की बात होती है। 10 वर्षों में विकास की ऊंचाई प्राप्त की है। सभी गरीब परिवार के पास प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं। इस बार 11 के 11 सीट जीत कर आपको भेंट करेंगे।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने रैली में कहा कि विष्णुदेव साय जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से मोदी जी की गारंटी को एक-एक करके पूरा करने में जुटे हैं। भूपेश बघेल 4 किश्तों में धान का पैसा दे रहे थे और आखिरी किश्त में कटौती कर रहा था, लेकिन विष्णु देव साय जी की सरकार ने पूरा पैसा एक साथ देने का काम किया।

कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि दुनिया को संदेश देने वाले, दुनिया को मार्गदर्शन देने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर गुंडाधूर की धरती पर आ रहे हैं। युवा, महिला, किसान, मजदूर सबका सम्मान इस सरकार ने किया है जो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है।

रैली में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विजय शंखनाद बस्तर से शुरू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जनहित के कार्यों पर मोहर लगा रहे हैं, उसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार तत्परता से कर रही है।

विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि एक समय पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज आटा मांग रहा है। वो घुसपैठ किया करते थे, आज मारे जा रहे हैं। आज श्रीनगर में रात 9 बजे के बाद लोग फिल्म देखने जाते हैं। यह पूरी स्थिति बदल गई है, आज नार्थ ईस्ट के राज्यों में भी परिस्थिति बदल गई है।

बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हेमंत कश्यप ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की वजह से बस्तर बदनाम है, उनको कांग्रेस ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है।

सजल ग्रुप की सखियों ने ली जश-प्राण के तहत शत्-प्रतिशत मतदान की शपथ

जशपुर नगर (विश्व परिवार)। नगर में सामाजिक कार्यों के लिए जागरुक एवं सक्रिय महिला समूह सजल ग्रुप के सदस्यों द्वारा शत् प्रतिशत मतदान हेतु संकल्प लिया गया। सजल ग्रुप शहर के जागरुक और सक्रिय महिला सखियों का ग्रुप है, जो समाज के कई सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों में सदैव अग्रसर रहता है। इस ग्रुप के द्वारा ना केवल स्वयं मतदान देने का संकल्प लिया गया बल्कि शहर के सभी लोगों को शत् प्रतिशत मतदान हेतु जागरूक एवं प्रेरित करने का संकल्प लिया है। समूह द्वारा इस अभियान की शुरुवात कुछ दिनों पूर्व ही की गई थी।

इस अवसर पर सदस्यों द्वारा आस- पड़ोस के लोगों को मतदान का महत्व समझाते हुए इसके महत्व की जानकारी देकर मतदान अवश्य करने का निवेदन किया गया। मेरा मत मेरा अधिकार, 7 मई को चलो मतदान केंद्र की ओर का नारा देते हुए हर्षोल्लास के साथ अभियान संचालित किया जा रहा है। समूह की सभी सदस्यों ने शपथ भी ली कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ ही अपने सभी आस- पड़ौस के तथा अपने सभी परिचितों का शत् प्रतिशत मतदान अवश्य करायेंगे।

इस अवसर पर सजल की सभी सखियाँ श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव, हेमा शर्मा, ममता सिन्हा, सीमा गुप्ता, सरिता साहू, अभिलाषा गुप्ता, किरण महतो, अनिता गुप्ता, अनिता चौधरी, मंजूला झा, ज्योति शाहनी, डॉली कुशवाहा, रीना सोनी, शशि साहू, कंचन सिंह सभी उपस्थित थीं।

आचार संहिता के चलते संदिग्ध वाहनों की चेकिंग जारी

राजनांदगांव (आरएनएस)। आगामी लोकसभा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिये पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के समस्त थाना, चौकी प्रभारियों एवं यातायात शाखा को निर्देश दिया गया है की अपने अपने थाना क्षेत्रों में एमसीपी लगाकर संदिग्ध लोगों पर नजर बनाये रखने और सघनता व सतर्कता के साथ वाहन चेकिंग करने, शराब, मादक पदार्थों व अन्य सामग्रियों पर रोकथाम करने तथा कानून-व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाये रखने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया था। जिसके तहत ओपी मोहरा, सुरगी एवं थाना यातायात पुलिस द्वारा आने जाने वाले संदिग्ध, वाहन, वस्तु व्यक्ति की जांच की गई।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, शंकर नगर रायपुर (छ.ग.), फोन नं.- 0771-4903223
Email Id: eocghbzone02@gmail.com

आम-सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सामान्य आवास योजनांतर्गत कॉलोनी, दोंदेखुर्द में स्थित सीनियर एल.आई.जी. भवन क्रमांक-454 **श्रीमती अलकनंदा तामस्कर पति स्व. श्री अनिल तामस्कर** को इस कार्यालय के आबंटन आदेश क्रमांक **8901** दिनांक **06.01.2010** के माध्यम से स्ववित्तीय आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी द्वारा उक्त भवन का पूर्ण मूल्य जमा कर दिनांक **05.05.2010** को लीजडीड पंजीकृत उपरांत आधिपत्य आदेश प्राप्त कर लिया गया है।

वर्तमान में **श्रीमती अलकनंदा तामस्कर पति स्व. श्री अनिल तामस्कर** निवासी- 320, तामस्कर बंगलो, वार्ड नं.-24, सिंधी कॉलोनी, स्टेशन रोड, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.), के द्वारा आवेदन पत्र, विक्रय इकरारनामा तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त भवन को क्रेता- **श्री अपूर्वनारायण त्रिपाठी पिता श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी,** निवासी- त्रिपाठी निकेतन, स्टीट-03, अशोक विहार कॉलोनी, पंडरी रायपुर, तह. व जिला- रायपुर (छ.ग.) को विक्रय करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भवन के विक्रय के संबंध में किसी व्यक्ति, शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्रं.-2)
शहीद समारक भवन, फाफाडीह, रायपुर
Email ID - rmczone2@gmail.com

पत्र क्रं./10582/न.पा.नि./जोन क्रं.-2/2024
रायपुर दिनांक : 08-04-2024

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 10582
वार्ड का नाम- 28- शहीद हेमू कालाणी वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 28 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी-आई.डी.- **RPR235G00221** जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती **JAWAHAR LAL TIWARI** पिता/पति, श्री/श्रीमती **R.P. TIWARI** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **श्री मनीष तिवारी** पिता/पति, श्री/श्रीमती **पिता- श्री जवाहर तिवारी** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत हक त्याग विलेख**/ वंशानुक्रम/अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करें
श्री आर.के. डोंगरे
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रं. - (2)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-4)
प्रेस क्लब, पानी टंकी के नीचे, छोटापारा, रायपुर
E-mail ID - rmczone4@gmail.com

पत्र क्र./10600/ न.पा.नि./जोन क्र.-4/2024
रायपुर, दिनांक 08-04-2024

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 10600
वार्ड का नाम- 45 - स्वामी विवेकानंद सदर बाजार वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 45 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR757B00182** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **SMT. REKHA DEVI** पिता/पति, श्री/श्रीमती **RAJENDRA KUMAR** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **1. मोहित झाबक 2. शोभित झाबक** पिता/पति, श्री/श्रीमती **दोनों पिता राजेंद्र झाबक** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **शपथ पत्र, टैक्स रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयतनामा, परिचय पत्र व अन्य दस्तावेज**/ वंशानुक्रम/अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक- (4)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-4)
प्रेस क्लब, पानी टंकी के नीचे, छोटापारा, रायपुर
E-mail ID - rmczone4@gmail.com

पत्र क्र./10602/ न.पा.नि./जोन क्र.-4/2024
रायपुर, दिनांक 08-04-2024

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 10602
वार्ड का नाम- 45 - स्वामी विवेकानंद सदर बाजार वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 45 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR739B00282** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **SHAHJAHA BEGUM** पिता/पति, श्री/श्रीमती **MIRJA SHAKIL BEG** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **मोहम्मद इस्लाम** पिता/पति, श्री/श्रीमती **शहामत अली** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख**/ वंशानुक्रम/अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक- (4)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-4)
प्रेस क्लब, पानी टंकी के नीचे, छोटापारा, रायपुर
E-mail ID - rmczone4@gmail.com

पत्र क्र./10603/ न.पा.नि./जोन क्र.-4/2024
रायपुर, दिनांक 08-04-2024

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 10603
वार्ड का नाम- 45 - स्वामी विवेकानंद सदर बाजार वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 45 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR739E01002** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **NIDHI PAREKH** पिता/पति, श्री/श्रीमती **VARUN JAIN** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **अंजलि वाधवानी** पिता/पति, श्री/श्रीमती **मनोहर वाधवानी** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख**/ वंशानुक्रम/अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक- (4)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-4)
प्रेस क्लब, पानी टंकी के नीचे, छोटापारा, रायपुर
E-mail ID - rmczone4@gmail.com

पत्र क्र./10604/ न.पा.नि./जोन क्र.-4/2024
रायपुर, दिनांक 08-04-2024

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 10604
वार्ड का नाम- 45 - स्वामी विवेकानंद सदर बाजार वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 45 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR739E00192** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **SHAIKH NAYEEM SHAHIDA BAGUAM** पिता/पति, श्री/श्रीमती **SHAIKH NAZIR SHEIKH NAIM** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **अजय वाधवा** पिता/पति, श्री/श्रीमती **स्व. अशोक वाधवा** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **पंजीकृत विक्रय विलेख**/ वंशानुक्रम/अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक- (4)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-4)
प्रेस क्लब, पानी टंकी के नीचे, छोटापारा, रायपुर
E-mail ID - rmczone4@gmail.com

पत्र क्र./10601/ न.पा.नि./जोन क्र.-4/2024
रायपुर, दिनांक 08-04-2024

इश्तिहार

नामांतरण प्र.क्र. 10601
वार्ड का नाम- 35 - पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 35 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. **RPR224G00127** जो की निगम अभिलेख श्री/श्रीमती **P.R. RATHI** पिता/पति, श्री/श्रीमती **HIRALAL RATHI** के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती **तारा देवी राठी** पिता/पति, श्री/श्रीमती **स्व. पीरदान राठी** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ **शपथ पत्र, टैक्स रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, सहमती पत्र, परिचय पत्र व अन्य दस्तावेज**/ वंशानुक्रम/अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

-सूचना जारी करें-
(जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक- (4)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

www.dainikvishwapariwar.com
vishwapariwarraipur@gmail.com

दैनिक
विश्व परिवार

बिलासपुर संभाग

रायपुर मंगलवार 09 अप्रैल 2024

अंधड़ में धराशायी हुआ नहर पुल पर बना शेड

सडक यातायात पर पड़ा असर, पुलिस ने संभाला मोर्चा

कोरबा(विश्व परिवार)। गर्मी के मौसम में कोरबा शहर फ्लाई ऐश की वर्षा और अंधड़ की चुनौतियों से जूझता ही रहा है। पिछले कई वर्षों से इस प्रकार के अनुभव लोगों को हुए हैं। आज सुबह आए अंधड़ ने कोरबा शहर के नहर पुल पर बनाए गए एक शेड को धराशाई कर दिया। गनीमत रही की घटना के दौरान जनहानि तो नहीं हुई लेकिन सडक पर इसके गिरने से यातायात बाधित हो गया, ऐसे में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हिंदू नव वर्ष प्रतिपदा के परिपेक्ष में कोरबा नगर में वृहद शोभायात्रा दो अलग-अलग संगठन के द्वारा निकाली जानी है। व्यापक स्तर पर इस काम को अंजाम देने के लिए धन संग्रह किया गया है। जिले के सभी क्षेत्रों से राशि एकत्रित हुई है। कारोबारी से लेकर आम लोगों से सहयोग प्राप्त हुआ है। शहर के एक इलाके में एक संगठन और दूसरे इलाके में दूसरा संगठन वर्ष प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष को खास बनाने के लिए अपने-अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। कोरबा मुख्य शहर के अंतर्गत की गई तैयारी से जुड़ा हुआ एक शेड रविवार की सुबह आए अंधड़ को बर्दाश्त नहीं कर सका और धराशाई हो गया। जल संसाधन विभाग के नहर पुल पर इसे पिछले 7 8 दिन से तैयार किया जा रहा था और एक दिन पहले ही अंतिम रूप दिया गया था। बड़ी संख्या में बस और लोहे के एंगल के सहारे खड़े किए गए शेड को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए चारों तरफकाले कपड़े का कवर्ड लगाया गया था और इसके आसपास लाइटिंग की गई थी। रात्रि में लाइटिंग और कलर कॉन्बिनेशन से यह लोगों को अपनी तरफखींचने का सबसे बड़ा जरिया बन रहा था। कोरबा शहर से शुरू होने वाली शोभायात्रा इस रास्ते से आगे जानी थी और बीच में नहर पुल एक पड़ाव था। खबर के मुताबिक इस काम के लिए बड़ा ठेका दिया गया था लेकिन गुणवत्ता के साथ समझौता करने के नतीजन रविवार को अंधड़ की उपस्थिति में यह सब ज्यादा देर टिक नहीं सका। सुबह 8रू30 के आसपास जिस व्यक्ति या घटना हुई संबंधित रास्ते पर यातायात शून्य था और इस कारण अप्रिय स्थिति नहीं बन सकी। हालांकि भारी भरकम शेड के सडक पर गिरने से व्यस्त रहने वाले नहर पुल पर यातायात का संकट उतपन्न हो गया। नवरात्र पर्व की शुरुआत से ठीक पहले कोरबा शहर में हुए इस घटनाक्रम के कारण लोग परेशान हुए। इसके लिए भी विचित्र स्थिति निर्मित हो गई।

सरकारी अनुदान मिलने के बावजूद गौशाला का संचालन चुनौतीपूर्ण स्थिति में



कोरबा(विश्व परिवार)। सरकारी योजनाओं का क्रियान्यवन कराने के अलावा और भी क्षेत्र में सरकार ध्यान दे रही है। इसके माध्यम से संस्कृति और परंपरा को मजबूत करने का प्रयास जारी है। गौशाला का विषय इसी से जुड़ा हुआ है। यह बात अलग है कि सरकारी अनुदान प्राप्त होने के बावजूद कोरबा जिले में संचालित हो रही गौशालाएं चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। दरअसल गायों के संरक्षण पर हर महीने होने वाला खर्च अनुदान की तुलना में बहुत ज्यादा है।जिले में कनबेरी, कुदूरमाल, भवानी मंदिर, चिर्रा और केंदई में गौशालाएं संचालित हो रही है। सामाजिक संगठन ने इनकी जिम्मेदारी ली है। इनका अधिकतम कामकाज उन लोगों के सहयोग पर टिका हुआ है जो गायों को सम्मान देने के साथ उनके योगदान को समझते है। जानकारी के अनुसार सरकार के द्वारा गौशालाओं को 10 से 20 लाख रूपये का अनुदान उनकी स्थिति और संचालन के तौर-तरीके व स्तर के आधार पर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में गौ-सेवा आयोग को इस दिशा में काम करने के अधिकार दिये गये है। गौ-सेवा संचालन से जुड़े हुए लोग बताते है कि गायों को हर हाल में अच्छा रखने के लिए हर महीने गौशाला पर अधिकतम 5 लाख का खर्च होता है। इसमें चारा, कुट्टी के साथ-साथ चिकित्सा और केयरटेकर के खर्च शामिल है। संस्थाओं ने इस प्रकार के खर्च निकालने के लिए दानदाताओं का सहारा लिया है जो सामाजिक और धार्मिक कारणों से गौशालाओं के लिए उदारता दिखाते है।

बालको रेंज के भटगांव जंगल में लगी आग

कोरबा(विश्व परिवार)। बालको रेंज में आने वाले ग्राम भटगांव के पास जंगल में आग लग गई। आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही हैं। बावजूद वन कर्मियों ने इस पर काबू पाने की कोशिश नहीं की है। बताया जा रहा है कि जिस क्षेत्र में आग लगी है, वहां काफी तादाद में इमारती लकड़ियों के पौधे और तमाम किस्म की वनस्पतियां जलकर खाक हो गई हैं। जंगल में आग लगने से वन्यजीवों की जान को खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों की मानें तो कई छोटे-बड़े पेड़-पौधे आग की चपेट में आकर झुलस गए हैं। इससे पहले मार्च माह में भी बालको रेंज के जंगल में भीषण आग लगी थी। इस दौरान रोगबहरी और जामबहार के बीच के जंगल का बड़ा इलाका आग से जल गया था और आग से बड़ी मात्रा में पेड़-पौधे जलकर खाक हो गए थे। यहा बताना होगा कि हर साल गर्मी के मौसम में जंगलों में भीषण आग लगती है। इससे वन विभाग को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं आग की चपेट में आने से छोटे वन्य प्राणियों की मौत हो जाती है और पेड़-पौधे झुलस जाते हैं। हालांकि वन विभाग दावा करता है कि आग को रोकने के उनके पास पर्याप्त इंतजाम हैं, लेकिन जब घटना होती है, तब दावे बेकार साबित होते हैं।

मारवाड़ी युवा मंच दर्री को फिर मिला प्रांत की सर्वश्रेष्ठ शाखा का पुरस्कार

कोरबा(विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ प्रांत की अष्टम कार्यकारणी की प्रथम प्रांतीय सभा उजियार का आयोजन रायपुर सेंट्रल शाखा के आतिथ्य में एसएन पैलेस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र भट्टड़ प्रांतीय अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। सभा में मंच से संबंधित विभिन्न विषयों पर मनन चिंतन किया गया। प्रांत में कार्यरत 76 शाखाओं को उनके सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय व प्रांतीय नेतृत्व ने पुरस्कृत किया। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रांत की सर्वश्रेष्ठ शाखा का पुरस्कार दर्री जमनीपाली शाखा के अध्यक्ष राकेश गोयल के नेतृत्व में प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ प्रांतीय कार्यकारणी सदस्य का पुरस्कार प्रांतीय संयुक्त मंत्री सुमित अग्रवाल, सर्वश्रेष्ठ सचिव सेंपी अग्रवाल, श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष अमित अग्रवाल को प्रदान किया गया। साथ ही दर्री जमनीपाली शाखा को अन्य विभिन्न सेवा कार्यों प्रकल्पों के लिए पुरस्कृत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने कहा कि दर्री जमनीपाली शाखा शुरू से सेवा कार्यों में प्रांत ही नहीं वरन राष्ट्र में भी अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुकी है। इस अवसर पर दर्री जमनीपाली शाखा की ओर से प्रांतीय संयुक्त मंत्री सुमित अग्रवाल, प्रांतीय संयोजक अंजय अग्रवाल, शाखा सचिव सेंपी अग्रवाल, उपाध्यक्ष अरुण केडिया, कोषाध्यक्ष अमित अग्रवाल,सदस्य पारस अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल,सतीश अग्रवाल सभी सदस्य उपस्थित रहे।

अमेरिकी दंपती ने मातृछाया से गोद लिया बच्चा

गोद भराई की रस्म धूमधाम से निभाई गई

तीन साल पहले आनलाइन किया था आवेदन

कोरबा(विश्व परिवार)। एक मासूम जिसे पैदा होते ही उसकी मां और परिवार ने त्याग दिया, जिसके दिल में चार एमएम का छेद था। उस मासूम को शिशु मातृछाया ने सहारा दिया। मासूम का इलाज रायपुर के बड़े अस्पताल में कराया गया। छोटी उम्र में ही जीवन के बड़े संघर्ष के बाद अब इस बच्चे को उसके माता-पिता मिल गए हैं। अमेरिका से आए दंपति ने इस बच्चे को गोद ले लिया है। मातृछाया में गोद भराई की रस्म धूमधाम से निभाई गई। इस बच्चे को विधि-विधान से अमेरिकन दंपति का सौंपा गया है। अब वह अमेरिका में रहेगा। मातृछाया सेवा भारती प्रकल्प में ऐसे बच्चों को रखा जाता है, जिन्हें पैदा होते ही उनके माता-पिता त्याग देते हैं। जो कूड़े में, नाले में या मातृछाया के ही पालने में संस्था को मिल जाते हैं। यह संस्था भारत सरकार और स्थानीय महिला एवं बाल विकास विभाग से पंजीकृत होती है। यहां पल रहे एक वर्ष 11 महीने के बालक को अमेरिकन दंपति ने गोद लिया है। बीते कई सालों से किसी बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया का पालन कर रहे थे। लंबे इंतजार के बाद उन्हें अवसर मिला। भारतीयों की संस्कृति को देखकर वह अभिभूत थे। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति से बेहद लगाव है, इसलिए हम एक भारतीय बच्चे को गोद लेना चाहते थे। मातृछाया संस्था के सचिव सुनील जैन ने कहना है कि यह हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि हमारे संस्था की ओर से जिस बच्चे का पालन पोषण किया गया है, जिस बच्चे के दिल में छेद था। अब वह अमेरिका जैसे देश में जाकर रहेगा। जिन बच्चों को पैदा होते ही छोड़ दिया जाता है, उन्हें हम रखते हैं। हमारे संस्था में काम करने वाली यशोदा मांऐं बच्चों का पालन-पोषण करती हैं। वह बच्चों को सिर्फदूध नहीं पिलाती बाकी सभी तरह के देखभाल वह करती हैं। एक तरफ हमें खुशी है कि बच्चा अमेरिका जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ यह दुख भी है कि जिस बच्चे का हमने पालन पोषण किया, अब वह हमारे परिवार से दूर हो जाएगा। लाइफलाइन चिल्ड्रन सर्विस एजेंसी अधिकारी अलेक्स सैम कोरबा पहुंचे हुए थे। यह संस्था भारत सरकार के देखरेख में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को पूरा करती है। एलेक्स ने बताया कि सेंट्रल अडोप्ट रिसोर्स आथरिटी के जरिए गोद लेने के लिए आनलाइन आवेदन करना पड़ता है।

51 हजार मनरेगा श्रमिकों ने ली मतदान करने की शपथ

कलेक्टर के निर्देश पर जिले में मतदाता जागरूकता के तहत शत-प्रतिशत मतदान करने सतत हो रहा आयोजन

जिला पंचायत सीईओ ने पामगढ़ के ग्राम पंचायत पडरिया, धरदेई, भैंसो, मुलमुला व कोसा में मनरेगा श्रमिकों को दिलाई शत-प्रतिशत मतदान करने की शपथ, मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

जांजगीर-चांपा(विश्व परिवार)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप नोडल अधिकारी श्री गोकुल कुमार रावटे के मार्गदर्शन में जिले में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप के तहत चलाए जा रहे मतदाता जागरुकता अभियान को लेकर रविवार को जिले के सभी विकासखंडों के ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत आयोजित रोजगार दिवस के मौके पर शत-प्रतिशत मतदान शपथ का आयोजन किया गया। इस दौरान मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतो में चल रहे कार्यों के दौरान 51 हजार 545 श्रमिको जिसमे युवा, महिला, पुरूष सहित सभी ग्रामीणों शामिल थे ने मतदाता जागरूकता के तहत शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ ली। जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत पडरिया, धरदेई, भैंसो, मुलमुला व कोसा में चल रहे कार्य में पहुंचकर श्रमिकों को मतदाता जागरूकता अभियान हेतु शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करते हुए शपथ दिलाया गया और मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला एवं पामगढ़ जनपद सीईओ, मनरेगा पीओ , टीए उपस्थित रहे। अकलतरा जनपद पंचायत में 11 हजार 524, जनपद पंचायत में बम्हनीडीह में 9 हजार 864, बलौदा जनपद पंचायत में 11 हजार 514, नवागढ़ जनपद पंचायत में 10 हजार 834 एवं पामगढ़ जनपद पंचायत में 7 हजार 809 श्रमिको ने शपथ ली। जिले में मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न प्रकार के आयोजन किये जा रहे है। इसी तारतम्य में जनपद पंचायत नवागढ़ की ग्राम पंचायत सिवनी, अमोरा, कर्रा, जनपद पंचायत बम्हनीडीह की ग्राम पंचायत चोरिया, जनपद पंचायत बलौदा की ग्राम पंचायत पनोरा, हेडसपुर, चारपारा जनपद पंचायत अकलतरा की ग्राम पंचायत खोंड, बरगवां, लटिया, बरपाली पड़रिया, फरहदा, रसेडा, जनपद पंचायत पामगढ़ की ग्राम पंचायत मुड़पार चु, पडरिया, जेवरा, खरखोद में शपथ ग्रहण के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं युवाओं श्रमिकों ने भाग लिया और उन्होंने इस दौरान मतदाता जागरूकता की शपथ भी ली।

संक्षिप्त समाचार

तेज रफ्तार ट्रेलर ढाबा में जा घुसा, जनहानि नहीं

कोरबा(विश्व परिवार)। रविवार को सुबह कोरबा हाटी सब हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर सडक के किनारे स्थित बंटी ढाबा में जा घुसा। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा है। कोरबा जिले के ऊरगा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत भेसमा में आज सुबह लगभग 5 बजे यह घटना हुई। जानकारी प्राप्त हुई है कि कोरबा की तरफआ रहा एक ट्रेलर इस गांव में पहुंचने के साथ एकाएक बेकाबू हो गया और सडक से उतरकर बनटी ढाबा में जा घुसा। संयोग से इस दौरान कोई व्यक्ति ढाबा के आसपास नहीं था, इसलिए जनहानि नहीं हुई। लेकिन ढाबा को नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस थाना प्रभारी केके वर्मा ने बताया कि ढाबा संचालक को हमने कहा है कि वह इस बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए ताकि अगली कार्रवाई की जा सके। याद रहे एक दिन पहले ही इसी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत उरगा में ही इसी प्रकार की घटना हुई थी जिसमें सुरजीत सिंह के ढाबा में एक ट्रेलर के घुसने के कारण उसे काफी नुकसान हुआ था।

भाजपा के स्थापना दिवस पर घरो में लगाया ध्वज

कोरबा(विश्व परिवार)। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल दीपका के बूथ क्रमांक 115 में घर-घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाया गया,इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश शर्मा, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सुजीत सिंह, भाजयुमो सोसल मीडिया प्रभारी नवीन साहू ,मीडिया सह प्रभारी, दीपक दुबे,अभिषेक यादव, मुकेश कुमार,दीपक पटेल , लड्डन खान , मनीष केवट , प्रदीप पाल जी, बिट्टू अग्रवाल , ईश्वर राठौर, मोनू सिंह , एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल दीपका के कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे

महिला मंडल ने शीतल जल उपलब्ध कराने खोला प्याऊ

कोरबा(विश्व परिवार)। प्रेरणा महिला समिति, सेंट्रल एक्सेवेशन वर्कशाप गेवरा की अध्यक्षा प्रमिला शर्मा व सदस्यों द्वारा वर्कशाप गेवरा के सामने राहगीरों को शीतल जल मिलने का एक छावनी तथा प्याऊ की व्यवस्था की गई। छह मिट्टी का घड़ा और पीने के लिए स्टील का गिलास उपलब्ध कराया। साथ ही प्रतिदिन पानी पिलाने के लिए एक आदमी को नियुक्त किया गया। इस प्याऊ व्यवस्था की शुरुआत समिति की सदस्यों के साथ मिलकर सबको गुड़ चना एवं ठंडे शरबत के वितरण के साथ किया। इस अवसर पर प्रेरणा महिला समिति की अध्यक्षा प्रमिला शर्मा, सचिव सोमा बाला, कोषाध्यक्ष अंजू सिंह, हरिता कोसले, रीना बढ़ाई, रीता बेहरा और हेमप्रभा साहू उपस्थित रहीं।

गीतकुवांरी में मंडरा रहा दंतैल

कोरबा(विश्व परिवार)। वन मंडल कोरबा के कुदमुरा रेंज के गीतकुवांरी गांव में एक दंतैल हाथी मंडरा रहा है। दंतैल के क्षेत्र में पहुंचने और गांव के निकट मंडराने से ग्रामीण दहशत में है। बताया जाता है कि यह दंतैल धरमजयगढ़ क्षेत्र से धमका है और यहां आते ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। दंतैल ने बीती रात ग्रामीणों के खेतों में पहुंचकर रवि फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों को इसकी जानकारी आज सुबह तब लगी जब वे अपने खेतों में फसल को देखने पहुंचे तो वहां फसल को रौंदा हुआ पाया। इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई। जिस पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर दंतैल की निगरानी में जुट गया है, वहीं आसपास के गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। उधर कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज में 39 हाथी अभी भी जमें हुए है। जिसकी निगरानी वन विभाग के मैदानी अमले द्वारा की जा रही है।

विद्युत मंडल में चल रहा सदस्यता अभियान

कोरबा(विश्व परिवार)। विद्युत मंडल में श्रमिक संगठनों के द्वारा सदस्य बनाने का काम किया जा रहा है। यहां पर बिजली कर्मचारी संघ इंटक व जनता यूनियन सक्रिय है। बिजली कर्मचारी संघ का प्रभाव सबसे ज्यादा है। विद्युत मंडल एचटीपीपी में राष्ट्रीय सचिव राधेश्याम जायसवाल के नेतृत्व में अजय मिश्रा, मदन मोहन पाण्डेय, केदार राठौर, हेतराम सहित कई कार्यकर्ता सक्रिय है। कोरबा पूर्व में प्रदेश सचिव नवरतन बरेठ, संदीप राठौर, आशीष शर्मा, श्यामसुंदर खुंटे, पूर्णिम साहू के द्वारा सदस्य बनाये जा रहे है। लैंको में शिव पाटले, भीम सिंह चैहान सहित कई कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे है। इस संबंध में नवरतन बरेठ ने बताया कि जिसके पास सबसे अधिक सदस्य है वहीं संगठन आगे बढकर काम करता है। पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी संघ मजबूत माना जाता है।

दैनिक
विश्व परिवार

विचार-पक्ष

रायपुर मंगलवार 09 अप्रैल 2024

www.dainikvishwapariwar.com
vishwapariwarraipur@gmail.com

संपादकीय

जमीनी हालात एनडीए के अनुकूल नहीं है....

लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के इतना कुछ करने के बावजूद बिहार में अब भी उम्मीद है। जमीनी हालात एनडीए के अनुकूल नहीं दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की लहर या अयोध्या की राम लहर का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि मतदाता किसी लहर से प्रभावित होकर या भावनात्मक मुद्दे के असर में वोट डालने की मंशा नहीं जाहिर कर रहे हैं। ध्यान रहे पिछली बार के चुनाव में राज्य की 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थीं। भाजपा 17 सीटों पर लड़ी थी और सभी सीटों पर जीती थी। एक सीट सिर्फ नीतीश की पार्टी हारी थी। रामविलास पासवान की पार्टी भी अपने कोटे की छह सीटों पर जीत गई थी। इस बार हर कोई मान रहा है कि सीटें कम होंगी। जनता दल यू को ज्यादा नुकसान की संभावना जताई जा रही है। इसका कारण यह भी है कि इस बार भाजपा को रोकने के विपक्षी अभियान की शुरुआत बिहार से ही हुई थी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ विपक्षी गठबंधन बनाने के जब प्रयास शुरू हुए तो सबसे पहले बिहार के ही नेताओं ने कहा था कि अगर 50 सीटें कम कर दी जाएं तो मोदी सरकार बहुमत गंवा देगी। तब नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि यह तो नंबर का खेल है और इस बार विपक्ष मोदी के नंबर्स कम कर देगा। उसके बाद ही आंकड़ों के खेल शुरू हुआ कि कहां से कितनी सीटें कम हो सकती हैं। नंबर्स के इस खेल में बिहार हमेशा अहम रहा। बिहार के अलावा बड़े राज्यों में कर्नाटक और महाराष्ट्र में भाजपा के नंबर्स कम होने की संभावना तभी से देखी जा रही है। भाजपा और नरेंद्र मोदी को हरा कर सत्ता से बाहर कर देने के बरक्स यह एक दूसरा नैरेटिव था कि उसकी 40-50 सीटें कम कर दी जाएं। यह नैरेटिव बनने के बाद मोदी को समझ में आया कि ऐसा हो सकता है। तभी सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले नीतीश कुमार को तोड़ने का प्रयास शुरू हुआ। उनकी पार्टी के नेताओं पर दबाव डाल कर या करीबी कारोबारियों पर कार्रवाई के जरिए भाजपा कामयाब हो गई। उसने नीतीश को फिर से गठबंधन में शामिल कर लिया।

विद्यार्थियों के लिए फिटनेस कायक्रम जरूरी

भूपिंदर सिंह

कम से कम बीस मिनटों तक तेज चलने, दौडने व शारीरिक क्रियाओं के करने से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार तेज हो जाता है। उससे हर मसल को उपयुक्त मात्रा में प्राणवायु मिलने से उसका समुचित विकास होता है। आज के विद्यार्थी को अगर कल का अच्छा नागरिक बनाना है तो हमें उसके लिए सही फिटनेस कार्यक्रम भी देना होगा वर्षों से स्कूली स्तर पर फिटनेस कार्यक्रम शुरू करने की बात इस कॉलम के माध्यम से हो रही है, मगर हिमाचल प्रदेश का कोई भी सरकारी या निजी स्कूल अपने यहां फिटनेस कार्यक्रम लागू करने में नाकाम रहा है। कई बार नए शिक्षा सत्र शुरू होकर खत्म हो गए, मगर फिटनेस कार्यक्रम कहीं भी शुरू नहीं हो पाया है। मगर इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विद्यालयों में विद्यार्थियों की सामान्य फिटनेस के लिए पहले की तरह अनिवार्य रूप से ड्रिल के पीरियड का प्रावधान किया है। शिक्षण विषयों के रिपोर्ट कार्ड की तरह स्वास्थ्य के मानकों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रत्येक विद्यार्थी का हर स्कूल में अनिवार्य रूप से हो, क्योंकि भाषा व अन्य शिक्षण विषयों की तरह ही स्वास्थ्य के मूल स्तंभ स्पीड, सट्रेंथ, इडोरेंस व लचक आदि का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी उसी उम्र में शुरू करना होता है। शिक्षण विषयों के लिए तो स्कूलों के पास शिक्षक सहित पूरा प्रबंध है, मगर स्वास्थ्य के घटकों को विकसित करके उनका मूल्यांकन करने की कोई भी सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस कॉलम के माध्यम से कई बार इस विषय पर स्कूलों व अभिभावकों को चेताया जा चुका है, मगर कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी देश को इतनी क्षति युद्ध या महामारी से नहीं होती है, जितनी तबाही नशे के कारण हो सकती है। आज जब देश के अन्य राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में भी नशा युवा वर्ग पर ही नहीं किशोरों तक चरस, अफीम, स्मैक, नशीली

दवाओं तथा दूरसंचार के माध्यमों के दुरुपयोग से शिकंजा कस रहा है, इसलिए सरकार, स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों को इस विषय पर जरूरी कदम जल्दी ही उठा लेने चाहिएं। यदि विद्यार्थी किशोरावस्था में नशे से बच जाता है तो वह फिर युवावस्था आते-आते समझदार हो गया होता है। माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विधाओं में व्यस्त रखने के साथ-साथ शारीरिक फिटनेस की तरफ मोडना बेहद जरूरी हो जाता है। मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा की परिभाषा में साफ-साफ लिखा है कि यहां शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से बराबर विद्यार्थियों का विकास करना है जिससे वे आगे चलकर जीवन को सफलतापूर्वक खुशहाल जी सकें। शारीरिक विकास के लिए खेलों के माध्यम से फिटनेस कार्यक्रम बहुत जरूरी हो जाता है। खेल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी को नशे से दूर रखा जा सकता है। पड़ोसी राज्य पंजाब एक समय तरक्की में देश का अग्रणी राज्य रहा है। खेलों में उत्कृष्टता उस प्रदेश की तरक्की व खुशहाली का भी पैमाना होती है। पंजाब में हजारों प्रशिक्षक विभिन्न खेलों में खेल प्रशिक्षण के लिए नियुक्त होने के साथ-साथ खेल प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचा होना वहां के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख कारण रहा था। बाद में जब पंजाब धीरे-धीरे खेलों से दूर हुआ तो पहले वहां आतंकवाद और फिर आजकल पंजाब नशे का अड्डा बना हुआ है। यही कारण है कि हर क्षेत्र में आज हरियाणा पंजाब से काफी आगे निकल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एशियाई, राष्ट्रमंडल व ओलंपिक खेलों में पदक विजेता होने पर खिलाडियों को करोड़ों रुपए के नगद ईनाम व सम्मानजनक नौकरी देकर हरियाणा में खेलों के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण तैयार किया है। उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा का हर किशोर व युवा किसी न किसी खेल के मैदान में नजर आता है। हिमाचल प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की खेलों के लिए अपने पहले कार्यकाल से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश में कई खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड, सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण तथा देश में प्रशिक्षक कैडर डाईंग हो जाने के बाद पहली बार प्रशिक्षकों की भर्ती जैसे बहुत बड़े खेल सुधार किए। हिमाचल प्रदेश की खेल सुविधाओं का प्रयोग राज्य में स्वास्थ्य व खेलों के लिए बड़े स्तर पर करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश इस समय शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। पिछले कुछ दशकों से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों की फिटनेस में बहुत कमी आई है। इसका प्रमुख कारण विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम का न होना है। रट्टे वाली पढ़ाई की होड़ में हम विद्यार्थियों की फिटनेस को ही भूल गए हैं। हिमाचल प्रदेश की अधिकांश आबादी गांव में रहती थी। वहां पर सवेरे-शाम वर्षों पहले विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ कृषि व अन्य घरेलू कार्यों में सहायता करते थे। छात्र विद्यालय आने-जाने के लिए कई किलोमीटर दिन में पैदल चलता था। इसलिए उस समय के विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं थी। आज का विद्यार्थी घर के आंगन में बस पर सवार होकर विद्यालय के प्रांगण में उतरता है। पढ़ाई के नाम पर ज्यादा समय खर्च करने के कारण फिटनेस के लिए कोई समय नहीं बचता है। अधिकांश स्कूलों के पास फिटनेस के लिए न तो आधारभूत ढांचा है और न ही कोई कार्यक्रम है। आज का विद्यार्थी फिटनेस व मनोरंजन के नाम पर दूरसंचार माध्यमों का कमरे में बैठ कर खूब दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात मजाक लगती है। आज के विद्यार्थी के लिए विद्यालय या घर पर आधे घंटे के फिटनेस कार्यक्रम की सख्त जरूरत है। इसमें 15 से 20 मिनट धीरे-धीरे दौडना तथा विभिन्न कोणों पर शरीर के जोड़ों की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के बाद शरीर को कूलडाऊन करना होगा। कम से कम बीस मिनटों तक तेज चलने, दौडने व शारीरिक क्रियाओं के करने से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार तेज हो जाता है। उससे हर मसल को उपयुक्त मात्रा में प्राणवायु मिलने से उसका समुचित विकास होता है। आज के विद्यार्थी को अगर कल का अच्छा नागरिक बनाना है। तो हमें स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाई के साथ-साथ उसके लिए सही फिटनेस कार्यक्रम भी देना होगा। तभी हम सही अर्थों में अपनी अगली पीढ़ी को संपूर्ण शिक्षित कर सकते हैं।

विचार

वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों की पूरी गिनती की मांग

यह अनिवार्य है कि निर्वाचन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उठने वाले संदेहों का पूरा निवारण किया जाए। लोकतंत्र में यह विश्वास सबसे महत्त्वपूर्ण होता है कि चुनाव के जरिए वास्तविक जनमत की अभिव्यक्ति हुई है। तभी जनादेश सर्व-स्वीकृत बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में दर्ज होने वाले वोट और उससे संबंधित वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की अर्जियों पर वह समय रहते अपना निर्णय देगा। लेकिन फिलहाल संकेत यह मिला है कि अदालत ने इस मसले को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी है। वरना, सुनवाई दो हफ्तों के लिए नहीं टाली जाती। समस्या यह है कि 19 अप्रैल से मतदान शुरू हो जाएगा। यह तारीख जितनी करीब आएगी, निर्वाचन आयोग की यह दलील उतनी ठोस होती जाएगी कि इस मामले में सिस्टम बदलने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है। इस मामले में निर्वाचन आयोग के रुख पर पहले से कई सवाल रहे हैं। जबकि ना सिर्फ विपक्ष, बल्कि सिविल सोसायटी के भी बहुत बड़े दायरे में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गहराते शक के साथ वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग जोर पकड़ती गई है। मुमकिन है कि इन संदेहों में कोई दम ना हो। इसके बावजूद यह अनिवार्य है कि निर्वाचन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उठने वाले संदेहों का पूरा निवारण किया जाए। लोकतंत्र में यह विश्वास सबसे महत्त्वपूर्ण होता है कि चुनाव के जरिए वास्तविक जनमत की अभिव्यक्ति हुई है। तभी मिला जनादेश सर्व-स्वीकृत बना रहता है। अगर इसके विपरीत धारणाएं बनीं, तो फिर पराजित पक्ष अपनी हार को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता, जिससे पूरे राजसत्ता की वैधता को चुनौती मिलने की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए इसे आवश्यक माना जाता है कि मतदाता सूची तैयार करने से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक का हर कदम विश्वसनीय ढंग से उठाया जाए। दुर्भाग्य से इनमें से कुछ प्रक्रियाओं पर आज संदेह पैदा हो गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब वीवीपैट संबंधी अर्जियों पर फिर से सुनवाई का फैसला किया, तो उससे समाज के एक बड़े हिस्से में उम्मीद पैदा हुई। वीवीपैट पर्चियों की गिनती के खिलाफ व्यावहारिक दिक्कत संबंधी कई दलीलें दी जाती हैं। लेकिन चुनाव प्रक्रिया को संदेहों से परे बनाए रखने के लिए तमाम दिक्कतों को बेहिचक स्वीकार की जानी चाहिए। आशा है, अपना निर्णय देते वक्त सुप्रीम कोर्ट इस आकांक्षा को ध्यान में रखेगा।

फिर भी निशाना कांग्रेस!

दोनों सदनों में मोदी के भाषण का सार रहा कि कांग्रेस भले आज बेहद कमजोर हो और कुछ बौद्धिक क्षेत्रों को छोड़ कर नेहरू की विरासत को शायद ही कहीं याद किया जाता हो, लेकिन भाजपा अब भी इन दोनों को ही अपनी प्रमुख चुनौती मानती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में निशाने पर कांग्रेस को रखा। पार्टी को गुजरे जमाने की कहानी बताया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं का मखौल भी उड़ाया। मोदी की इस शैली को अनेक लोग संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं मानते। लेकिन अब उनकी इस शैली से देश भलि-भांति परिचित हो चुका है। यह अपेक्षा अब शायद ही किसी को रहती होगी कि कम-से-कम संसद में बोलते वक्त नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के अनुरूप बोलेंगे। इसलिए इस बिंदु को छोड़ते हुए उन्होंने जो कहा, उसके मतलब समझने पर लोग अब अधिक ध्यान देते हैं। इस बार दोनों सदनों में दिए उनके भाषण का सार रहा कि कांग्रेस भले आज बेहद कमजोर हो चुकी हो और कुछ बौद्धिक क्षेत्रों को छोड़ कर जवाहर लाल नेहरू की विरासत को शायद ही कहीं याद किया जाता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (और संभवत: उसके मातृ संगठन आरएसएस) की नजर में अब भी ये दोनों को ही उसके लिए प्रमुख राजनीतिक चुनौती हैं। यह बात उसके व्यवहार में भी झलकती है। 2022-23 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 'नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान' की जो उपमा उछाली, उससे बने प्रभाव को भाजपा ने पूरी गंभीरता से लिया। खुद राहुल गांधी ने भले उस कथानक को बीच में छोड़ दिया, लेकिन भाजपा ऐसे प्रयासों से उत्पन्न हो सकने वाली चुनौती को बेहतर समझती है। इसीलिए इस बार जब गांधी ने 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' शुरू की, तो शुरू से ही उसकी चमक फीकी करने की रणनीति पर वह आगे बढ़ी है। इसके लिए कांग्रेस/इंडिया गठबंधन से पाला-बदल कराने का तरीका अपनाया गया है। मुरली देवड़ा और नीतीश कुमार इसकी मिसालें हैं। और इसी क्रम में राहुल की यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश से ठीक पहले जयंत चौधरी के पाला-बदल के कयास को भी मीडिया में उछाला गया है।

नवरात्रि पर्व चिंतन आलेख-मुरझाती नहीं है बेटियां...

पूरी दुनियां में भारत देश ही एक अकेला ऐसा देश है, जहां की एक वर्ष में दो बार नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। क्वांर और चैत्र के माह

में नौ-नौ दिन तक मां दुर्गा के नव रूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व को छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जहां की डोंगरी-पहाड़, खेत-खार, तालाब-नदियों के किनारे घने जंगलों के बीच दंतेश्वरी ,बम्बेलश्वरी, महामाया, सतबहनिया ,चंडी माई,मरही माता, शीतला माता, बंजारी ,बिलई, चंद्रहासिनी माता, अंगारमोती जैसे अनेक नामों से माताश्री के मंदिर हैं। इसीलिए समुचे देश में यह एक ऐसा अकेला राज्य जहां के निवासी छत्तीसगढ़ को महतारी कहते हैं। इस पर्व में 'कन्या भोजन' कराने का प्राचीन रिवाज है,दरअसल कुंवारी कन्याओं को देवी के रूप में पूजने की प्रथा है।कहा जाता है कि 'बेटी खाएगी उसे देवी पाएगी।इसी मान्यता के परिपालन में नवरात्रि पर्व पर देवी भक्त नव कन्याओं को विविध पकवान फल खिलाते हैं। कन्याओं का चरण धोकर,चरण छू कर उन्हें अपनी श्रद्धा भक्ति सामर्थ के मुताबिक भेंट देकर आशीष मांगते हैं।

विछोह की वेदना भूल जाती हैं बेटियां

बेटी जो जन्म के बीस पच्चीस बरस मायके में बिताती है। ए सुनते सुनते कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, दुर्भाग्य है कि विवाह उपरांत उन्ही बेटियों को ससुराल में भी जीवन भर पराया कहा जाता है।स्मरण कीजिए एक पौधे को मिट्टी से गमले में या गमले से मिट्टी में जब रोपा जाता है तो वह स्थान परिवर्तन की पीड़ा में मुरझा जाता है। वहीं बीस पच्चीस वर्षों तक मायके में पली बढ़ी बेटियां अपनी मिट्टी,अपना घर- परिवार,गांव- शहर अपनी सखी सहेलियों को छोड़कर समस्त पुराने रिश्तों के विछोह की वेदना को भूलाकर सदा सदा के लिए ससुराल में जा बसती है।

वहां भी अगर बेटी को माता-पिता की थोड़ी भी अकुशलता का समाचार मिलता है तो वह मायके जाने को मछली की भांति तड़फ उठती है।हमारे वेद पुराण इतिहास,और चिंतक चीख चीख कर बता रहे हैं कि बेटों की तूलना में बेटियां कम ज्ञानी नहीं होती। हमारे हरेक पर्व हमारी परम्पराएं बेटियों पर केंद्रित हैं। बेटियों की घटती संख्या के कारण समाज में अनेक रिश्ते-नाते, त्योहार समाप्त प्राय हो चलें है। इस विषय पर गंभीर चिंतन मनन करने नवरात्रि पर्व फिर आया है।इस पर्व पर देवी की पूजा में लीन देवी भक्तों से यही कहना है कि रोते बिलखते परिवार को बिटिया हंसा देती है। इसीलिए वे देवी की वरदान होती हैं,अत: बेटियों का मान देवियों के मानिंद ही रखें। इसी में जगत की भलाई है। ऐसे ही भावनाओं की अभिव्यक्ति कविश्री ने दिल को छू लेने वाली पंक्तियों में व्यक्त किया है -- हल्दी-कुमकुम,मेंहदी-सिंदूर का अवतार न होता न होती बहिन -बेटियां तो रंक्षाबंधन-भाईदूज तीज का त्यौहार न होता।

जीती-जागती देवी हैं बेटी

आजकल बदलते वक्त के साथ इस प्राचीन परंपरा में बड़ी विकृति दिखाई दे रही है। समाज में बेटी- बेटा के मध्य बड़ा ही भेदभाव का बोल बाला दिखाई दे रहा है। बेटे होने की खुशी में जश्न मनाते हैं,किंतु जब बेटी जन्म लेती है तो ज्यादातर लोगों का मुंह ऐसे लटक जाता है,जैसे उन्हें सांप ने सुंघ लिया हो। ऐसी भयावह घटना भी सामने आ रही है कि आधुनिकता के साथ चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति का दुरुपयोग करते हुए अनेक चिकित्सक और दम्पत्ति मिलकर कोख में पल रही कन्या भ्रूण की निर्मम हत्या कर दे रहे है। ऐसी क्रूरतापूर्ण हरकत करते समय इंसान भूल जाता है कि घर में आती हुई लक्ष्मी,सरस्वती और दुर्गा की जघन्य हत्या करके महापाप का भागीदार अपने ही हाथों अपने सिर मोल ले रहा है। ऐसे घृणित कृत्य को करने वाला इंसान ईमानदारी से अपने हृदय में हाथ रखकर अपनी आत्मा से पूछे कि कन्या भ्रूण हत्या'' करने वाले मनुष्य की पूजा का मान क्या मां दुर्गा स्वीकार करेगी? इस सवाल का सीधा-सीधा उत्तर है कभी नहीं। इसी तरह अनेक परिवारों में कम दहेज देने वाली दुल्हन को प्रताड़ित किया जाता है। उसे जलाकर मार डालने जैसा अकल्पनीय कृत्य किया जाता है। अनेक गांव में नारी जाति को डायन -टोनही कह कर मारा-पीटा जाता है ।ऐसी नासमझी और मूर्खतापूर्ण कदम उठाने वालों को यह सोचना चाहिए कि ऐसा करके वे लोग गांव घर की जीवित देवी का घोर अपमान कर रहे हैं। ऐसे ही कई अज्ञानी लोग अपना पाप धोने के लिए वर्ष में केवल दो बार नवरात्रि के पावन पर्व पर कन्या भोजन करवातें हैं। वे भूल जाते हैं कि घर परिवार की जीती जागती देवी का तिरस्कार करने वाले दुर्जनों को मां दुर्गा कभी भी क्षमा नहीं करेगी। हमारे समाज में कई ऐसी घटनाएं भी उजागर हुई हैं जब बेटों ने माता पिता की जमीन जायदाद को बांट लियाऔर फिर मुंह फेर लिया। इसके विपरीत फुटी कौड़ी की आस किए बिना भी बेटियों ने अपने माता-पिता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझा। बेटियों की ऐसी महिमा को व्यक्त करते कविश्री ने लिखा है कि- फूल सी नाजुक होती है बेटियॉ,

स्पर्श हो खुरदुरा तो रोती है बेटियां
रौशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को,
पर दो दो कुल की लाज को सवांरती है बेटियॉ।

विजय मिश्रा 'अमित' पूर्व
अति महाप्रबंधक (जन)

पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन टूटा

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

दरअसल अकाली दल की दुविधा यह है कि वह सिख समुदाय को एक विशिष्ट राजनीतिक ईकाई के तौर पर देखता है। उसे लगता है कि जो सिख अकाली दल के साथ है, वह तो सिख है, लेकिन जो सिख कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के साथ है, वह सिख नहीं है पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी लम्बे अरसे से मिल कर चुनाव लडने के आदी हो गए थे। इतिहास में देखा जाए तो मिलने-टूटने का यह सिलसिला 1967 के विधानसभा चुनावों के बाद ही शुरू हो गया था। बीच-बीच में मन-मुटाव भी हुआ लेकिन अब पिछले तीन दशकों से आपसी गठबन्धन ठीक-ठाक ही चल रहा था। किसान आन्दोलन से घबरा कर अकाली दल ने भाजपा से संबंध तोड़ लिया। अकाली दल को लगा कि पंजाब भाजपा के खिलाफ किसान आन्दोलन के नेताओं के साथ हो लिया है। ऐसी स्थिति में भाजपा के खिलाफखड़ा होना हाराकिरी करने के समान होगा। लेकिन अकाली दल का आकलन कम से कम इस मुद्दे पर गलत था कि पंजाब किसान नेताओं के साथ है। 2022 के विधानसभा चुनावों में किसान आन्दोलन में से उपजी नई पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा के सभी लोगों की जमानत जब्त हो गई। दरअसल किसान मोर्चा एक बहुत ही कुशल रणनीति और मैनेजमेंट के कौशल में से पैदा हुआ था। इस कौशल ने शून्य तो उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन इस कौशल के नेताओं को जन नेता नहीं बना सका। केजरीवाल को कुछ देसी विदेशी शक्तियां 2014 में से ही राष्ट्रीय रंगमंच पर लॉंच करने का प्रयास करती रही थीं। अलबत्ता वहां तो सफलता नहीं मिली, लेकिन पंजाब में जरूर सफलता मिल गई। वैसे भी किसान आन्दोलन में सक्रिय कम्युनिस्ट कैडर ने आम आदमी पार्टी की सहायता की थी। भारतीय जनता पार्टी वोटों

और सीटों के मामले में वहीं पहुंच गई जहां वह अकाली दल से गठबन्धन से पूर्व हुआ करती थी। वोट प्रतिशत लगभग छह सात के बीच और सीटें शून्य से आठ के बीच। वैसे इस चुनाव में भाजपा को दो सीटें और 6.6 फीसदी वोट मिले थे। सबसे ज्यादा नुकसान अकाली दल को हुआ। सीटें तीन। जहां तक वोट प्रतिशत का सवाल है अकाली दल को 18.38 प्रतिशत वोट मिले थे। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ आम आदमी पार्टी को हुआ जिसने 117 सदस्यों की विधानसभा में से 92 सीटें झटक लीं। इस नए राजनीतिक माहौल में कांग्रेस और अकाली दल में भगदड़ मचना लाजिमी थी। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि कांग्रेस और अकाली दल छोड़ कर लोग भाजपा में आने लगे और कुछ महीने पहले तक एक बार फिर अकाली-भाजपा गठबन्धन की चर्चा चल निकली। इसलिए जल्दी में फिर से एक लघु किसान आन्दोलन खड़ा हो गया। अकाली दल फिर घबराहट में आ गया। दरअसल पंजाब में किसान आन्दोलन अकाली दल को डराने-हडकाने का एक कारगार हथियार बन चुका है। अकाली दल इसको देख कर वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसी किसान आन्दोलन के आयोजकों को आशा होती है। कहीं न कहीं इससे पंजाब में शासन कर रही पार्टी की हित साधना भी होती है। कहा जाता है और धरातल पर दिखाई भी देता था कि पिछले किसान आन्दोलन में पंजाब की उस समय की शासक पार्टी की प्रत्यक्ष ही भागीदारी थी और इस बार के किसान आन्दोलन में आम आदमी पार्टी की सक्रिय भागीदारी देखी जा सकती है। परिणाम वही हुआ। अकाली दल गठबन्धन की बातचीत से बाहर हो गया। यह ठीक है कि इसमें सीटों की संख्या भी एक मुद्दा रहा होगा लेकिन जिस कारक ने अकाली दल को गठबन्धन के राऊंड टेबल से हड़बड़ाहट में उठा दिया, वह किसान आन्दोलन ही था। इस गठबन्धन की बात सिरे न चढने से सबसे ज्यादा खुशी शायद भाजपा के कार्यकर्ता को ही हो रही है। भाजपा के साधारण कार्यकर्ता को लगता है कि अकाली दल से गठबन्धन के कारण पंजाब में पार्टी का विकास रुकता है। यह ऊपर से देखने पर ठीक लगता है। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। दरअसल पंजाब में भूगोल के आधार पर पांच भाग हैं। मालवा, बाँगर, पुआध, दोआबा और माझा। भाजपा का आधार मोटे तौर पर 'पुआध' क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर रहता है, जहां उसका मुकाबला अकाली दल से नहीं बल्कि कांग्रेस से होता है। पंजाब का दूसरा हिस्सा जहां भाजपा का कुछ आधार है वह 'बाँगर' क्षेत्र है जो राजस्थान से लगता है। वहां भी उसका मुकाबला कांग्रेस से ही होता है। भाजपा का कुछ आधार जीटी रोड के शहरों में है और वहां भी उसकी प्रतिद्वन्द्वी पार्टी कांग्रेस होती है, अकाली दल नहीं। पंजाब में भाजपा की प्रगति न होने के अन्य बीसियों कारण हैं जिसमें जनसांख्यिकी प्रमुख है, लेकिन उसमें कम से कम अकाली दल नहीं है। पिछले कुछ अरसे से नरेन्द्र मोदी की रणनीति के चलते पंजाब की जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने कार्य विस्तार के प्रयत्न शुरू किए हैं। इस कार्य विस्तार के दो ही तरीके हैं। पहला नीचे धरातल पर कैडर निर्माण किया जाए और उसमें से नेतृत्व उभरे। यह लम्बा तरीका है और चुनाव सिर पर हैं। दूसरा तरीका है कि पंजाब की जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप नेतृत्व खड़ा कर लिया जाए और उसकी सहायता से कैडर निर्माण किया जाए। फिलहाल पंजाब में भाजपा ने यह दूसरा तरीका ही इस्तेमाल किया है। अन्य दलों से अनेक नेता भाजपा में आ रहे हैं। रवनीत बिट्टू नया चेहरा है। लेकिन उससे बहुत पहले कांग्रेस-अकाली दल से आने-जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। मनप्रीत सिंह बादल उनमें बड़ा चेहरा था। अकाली दल के वरिष्ठ नेता सिकन्दर सिंह मलूका की पुत्रवधू परमपाल कौर सिद्धू ने तो भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दे दिया है। उसकी चर्चा है कि वह भाजपा में शामिल हो रही है। ऐसे और भी उदाहरण हैं। भाजपा ने अभी जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उनमें गुरदासपुर को छोड़ कर ज्यादा प्रत्याशी वही हैं जो दूसरे दलों को छोड़ कर भाजपा में आए हैं। अमृतसर के तरणजीत सिंह संधू को अपवाद कहा जा सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इन इलाकों में भाजपा का अपना जनाधार उतना नहीं है कि अपने बलबूते चुनाव की लड़ाई लड़ सके। प्रत्याशी खड़े करने के दो उद्देश्य होते हैं।

संक्षिप्त समाचार

दिगंबर जैन समाज द्वारा अरहनाथ एवं अनंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया गया

नयापारा राजिम (विश्व परिवार)। नयापारा राजिम दिगंबर जैन समाज के द्वारा आज अरह नाथ भगवान एवं अनंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया गया मोक्ष कल्याणक के शुभ अवसर पर स्वर्ण कलश से शांति धारा मनोज कुमार अनिल कुमार जय कुमार जैन परिवार को प्राप्त हुआ रजत कलश से शान्ति धारा रूपचंद आकाश कुमार विकास कुमार अनमोल जैन परिवार को प्राप्त हुआ.निर्वाण लाडू चढ़ाने का सुअवसर मनोज कुमार अनिल कुमार जय कुमारजैन परिवार को एवं द्वितीय निर्वान लाडू अनीता किशोर अग्रिम सिंघई परिवार को मिला साथ ही अखिलेश आगम नाहर सुभाष वैभव चौधरी और रविंद्र रितेश रितिक सिंघई संजय नीलू जैन को भी निर्वान लाडू चड़ाने का सुअवसर प्राप्त हुआ निर्माण लाडू चढ़ने के पूर्व निर्माण कांड का पाठ हुआ सभी ने बड़ी भक्तिपूर्वक अरह नाथ एवं अनंतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया.उपरोक्त सभी कार्यक्रम अध्यक्ष किशोर सिंघई सचिव अखिलेश जैन एवम आकाश जैन के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ. निर्वान लाडू बनाके लाने का सौभाग्य सुनंदा, नंदिता, ज्योति जैन परिवार को मिला. **-किशोर जैन**

बाबा रामदेव के शिष्य नरेंद्र देव पहुंचे मनोहर गौशाला, कहा- कामधेनु के रूप में गोविंद के दर्शन दुर्लभ

रायपुर (विश्व परिवार)। खैरागढ़ स्थित मनोहर गौशाला में सोमवार को पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार से स्वामी नरेंद्र देव पहुंचे। उन्होंने कामधेनु माता के दर्शन कर कहा कि गायों की सेवा तन, मन, धन से मनोहर गौशाला के द्वारा की जा रही है। यहां साक्षात कामधेनु के रूप में गोविंद के दर्शन दुर्लभ हैं। भगवान की कृपा से उनका दर्शन करके हम सभी तृप्त हो गए। यह कार्य आगे चलकर विश्वरूपी होगा, इसकी हम ईश्वर से कामना करते हैं। बाबा रामदेव के शिष्य और छत्तीसगढ़ के प्रभारी स्वामी नरेंद्र देव ने गोबर की माला व चटाई देखकर कहा कि यह अद्वितीय है। प्रधानमंत्री को गोबर की चटाई भेंट करने की उन्होंने सराहना की। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बाबा रामदेव छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। उनसे निवदेन किया जाएगा कि वे एक बार मनोहर गौशाला व कामधेनु माता का दर्शन अवश्य करें।

ई.व्ही.एम./वीवी पैट मशीन का किया गया प्रथम रेण्डमाईजेशन

दुर्ग (आरएनएस)। लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 07 दुर्ग के लिए विधानसभाओं में उपयोग होने वाले ई.व्ही.एम. का प्रथम रेण्डमाईजेशन आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की मौजूदगी में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में किया गया। जिले में उपलब्ध ई.व्ही.एम. बी.यू-3102, सी.यू-1875 एवं वीवी-पैट 2012 उपलब्ध है, जिसमें से प्रशिक्षण एवं जागरूकता हेतु बी.यू-100, सी.यू-100 एवं वीवी-पैट 100 पृथक किया गया है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1385 मतदान केंद्र बनाए गए है, जिनमें विधानसभा क्षेत्र पाटन में 246 मतदान केंद्र, विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण में 230, विधानसभा क्षेत्र दुर्ग शहर में 224, विधानसभा क्षेत्र भिलाई नगर में 169, विधानसभा क्षेत्र वैशाली नगर में 256 एवं विधानसभा क्षेत्र अहिवारा में 260 मतदान केंद्र शामिल है। रेण्डमाईजेशन पश्चात् जिले में अतिरिक्त ई.व्ही.एम. की संख्या बी.यू-1342, सी.यू-115 एवं वीवी पैट 114 सुरक्षित रखी जाएगी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे एवं अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी, डिप्टी कलेक्टर श्री लवकेश कुमार ध्रुव आदि उपस्थित थे।

मूलनायक अरनाथ भगवान का निर्वाण लाडू श्रद्धा-भक्ति के साथ चढ़ाया गया

अरनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया गया, निर्वाण महोत्सव पर हुआ गुरुकुलम का शुभारंभ

ललितपुर (विश्व परिवार)। प्रागैतिहासिक तीर्थक्षेत्र नवागढ़ विकासखंड महरौनी में सोमवार को मूलनायक अरनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक अगाध श्रद्धा भक्ति के साथ ब्र. जय निशान्त भैया के निर्देशन में मनाया गया। इस मौके पर नवागढ़ गुरुकुलम का शुभारंभ नए शिक्षण सत्र के लिए किया गया।

प्रचार मंत्री डॉ सुनील संचय ने बताया कि पंडित गुलाबचंद जी पुष्प द्वारा 8 अप्रैल 1959 को अन्वेषित भौंयरे में विराजमान श्री अरनाथ भगवान का प्रकटन दिवस एवं निर्वाण महोत्सव के अंतर्गत अभिषेक, सभी श्रद्धालुओं की ओर से शांतिधारा, विधान एवं पूजन के माध्यम से लाडू समर्पित किया गया। लाडू का सौभाग्य डॉक्टर कोमलचंद अजनौर, मुन्ना लाल जैन अध्यापक, अशोक कुमार जैन मैनवार ने प्राप्त किया। श्री नवागढ़ गुरुकुलम के सभी छात्रों ने आज शिक्षण सत्र का शुभारंभ करते हुए अभिषेक, शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त करते हुए लाडू भी समर्पित किया।

इस अवसर पर क्षेत्र निर्देशक ब्रह्मचारी जयकुमार निशांत भैया के मंगल सानिध्य में महामंत्री वीरचंद नेकोरा, संयुक्त मंत्री कपूरचंद डूंडा, अशोक कुमार मैनवार नवागढ़ गुरुकुलम् के अध्यक्ष इंजी शिखर चंद जैन, कोषाध्यक्ष आनंदी लाल जैन, ऑडिटर प्रसन्न चौधरी बच्चू, नवागढ़ गुरुकुलम एवं तीर्थक्षेत्र कमेटी नवागढ़ आदि ने भक्ति संगीत के साथ अरनाथ भगवान के जीवन चरित्र का विशेषण करते हुए विधान संपन्न किया। तत्पश्चात वात्सल भोज संपन्न किया गया।

निर्वाण लाडू निर्माण का सौजन्य डॉक्टर बालचंद जैन मलगुआं ने प्राप्त किया। प्रात: बेला में मंगलाष्टक, दिग्बन्धन, अभिषेक और शांतिधारा भक्ति भाव के साथ की गई। निर्देशक ब्र. जयकुमार जी निशान्त ने बताया कि अनेक वर्षों बाद यह प्रसंग बना है की 8 अप्रैल 1959 को अन्वेषित मूलनायक अरनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक इसबार 8 अप्रैल को ही पड़ा है। भूगर्भ से प्राप्त मूलनायक अरनाथ भगवान के अतिशय के अनेक लोग स्वयं प्रभाव देख रहे हैं। उनके जीवन में परिवर्तन देखने को मिला है।

किसी की पड़ी हुई वस्तु को उठाना या छुपा देना चोरी है : आचार्य श्री आर्जवसागर जी महाराज

विदिशा (विश्व परिवार)। किसी की पड़ी हुई वस्तु को उठाना अथवा उस वस्तु का स्थान परिवर्तन करना या छुपा देना चोरी है। उपरोक्त उद्गार आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज ने प्रात:कालीन प्रवचन सभा में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि पहले के लोग सात्विक थे प्रजा के लिये जो नियम बनाये जाते थे उन नियमों सख्ती और पक्षपात से दूर उन नियमों का पालन प्रजा तो करती ही थी राजा भी उस न्याय नीति का पालन करते हुये डंड देते थे। उन्होंने आचौर्य व्रत की कथा सुनाते हुये कहा कि मिथिला देश के राजा श्रैणिक के पुत्र राजकुमार काफी धार्मिक प्रवर्त्ती के थे अष्टमी चातुर्दशी को वह व्रत रखकर जंगल में जाकर तपस्या करते थे एक बार चातुर्दशी की रात्री को राज महल में चोर रत्नों की चोरी करके भाग रहा था पहरेदारों ने देखा तो वह उसको पकड़ने उसके पीछा करते हुये जंगल की ओर आ गये उधर राजकुमार एक पेड़ के नीचे अपनी तपस्या में लीन थे चोर ने अपने आपको पकड़े जाने के भय और अपनी जान बचाने के लिये वह चोरी किये हीरे जवाहरात को तपस्या में लीन राजकुमार के सामने रखकर भाग जाता है उधर सिपाही चोर को ढूंढते हुये उधर आते है और देखते है कि राजमहल के जेबरात उधर पड़े है और वह तपस्या में लीन राजकुमार को उठाकर राजा के पास ले जाते है राजा की नजर राजकुमार पर पड़ती है तो वह सोचता है कि राजकुमार को ऐसे धन की क्या आवश्यकता पड़ गयी जो वह राजमहल की चोरी करने लगे? खैर राजा ने सच्चाई का पता लगाया तो सच्चाई सामने आ गयी! लेकिन लोक अपवाद से बचने के लिये सैनिकों को हुक्म दिया कि जंगल ले जाकर तलवार से सिर कलम कर दिया जाऐ राजा का आदेश था सैनिक राजकुमार को ले जाकर जैसे ही तलवार निकालते है तो वह तलबार फूल बन जाती है यह खबर जंगल में आग की तरह फैलती है और राजा को जब यह जानकारी लगती है तो वह राजकुमार का सत्कार करते है राजकुमार इस घटना के पश्चात वैराग्य का मार्ग चुन लेते है। प्रवक्ता अविनाश जैन ने बताया प्रतिदिन प्रवचन श्री शांतिनाथ जिनालय स्टेशन जैन मंदिर में 8:30 बजे से चल रहे है। **-अविनाश जैन**

समन्वय वाणी प्रकाशन के 44वें साल पर जैन पत्रकारिता गोष्ठी सम्पन्न

जयपुर (विश्व परिवार)। 7 अप्रैल 24 को समन्वय वाणी फाउंडेशन, अ.भा.जैन पत्र संपादक संघ तथा विद्वत्परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समन्वय वाणी के 43 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में- जैन पत्रकारिता- दशा एवं दिशा- विषय पर संगोष्ठी सम्पन्न हुई जिसके अध्यक्ष- वरिष्ठ पत्रकार मिलापचन्द डंडिया, मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार प्रवीणचन्द छाबड़ा तथा विशिष्ट अतिथि तीर्क्ष क्षेत्र कमेटी, महावीरजी क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सेठी थे। डा.अखिल बंसल एवं जिनकुमार शास्त्री ने समस्त अतिथियों का स्वागत एवं मंगलाचरण डॉ. श्रुति जैन ने किया।

सर्व प्रथम जर्नलिस्ट डॉ. अखिल बंसल ने समन्वय वाणी की संघर्षमयी 43 साल की विकास यात्रा प्रस्तुत की। स्मरण रहे कि समन्वय वाणी का प्रथम अंक 5 अप्रैल 1981 को प्रकाशित हुआ था। पत्रिका के उद्भव एवं विकास में राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री त्रिलोकचन्दजी जैन, मिलापचन्द डंडिया, प्रवीणचंद छावडा, डा.संजीव भानावत,पं.बंशीधर शास्त्री, पं.भंवरलाल पोल्याका, रतनलाल कटारिया विनयचन्द पापडीवाल, बाबू जुगल किशोर युगल, श्रीमती शैल बंसल आदि के प्रारंभिक योगदान को उल्लेखित किया। समन्वय वाणी के पता नहीं बेटा और समवसरण स्तंभ जैसे रोचक स्तम्भ काफी चर्चित रहे। पत्रिका सम सामयिक विषय, शिथिलाचार पर काफी मुखर रही। कटु आलोचन की लेकिन मर्यादा व सम्मान के सलीके का उल्लंघन नहीं किया। चौथे स्तम्भ की रक्षा चौथे पुत्र की भांति की।

संगोष्ठी की प्रथम वक्ता डॉ. सुषमा सिंघवी ने स्वतंत्रता पूर्व की 143 साल के जैन पत्रकारिता का इतिहास प्रस्तुत किया। जिसमें सन् वार पत्र का नाम, सम्पादन, प्रकाशन, विषय, विशेषता आदि का विवरण मय उद्धरण प्रस्तुत किया जिसे सभी ने सराहा।

द्वितीय वक्ता राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा ए वन चैनल हैड ने जैन ने पत्रकारिता का आलोचनात्मक पक्ष प्रस्तुत किया। पत्र एवं पत्रकार के प्रति समाज के व्यवहार पर चर्चा की। उन्होंने सत्ता उपासक पत्रकारिता की अपेक्षा लोक उपासक पत्रकारिता को श्रेष्ठ बताया। चाहे सत्ता समाज, राजनीति, धर्म या धन की हो।

जैनपथ प्रदर्शक के संपादक परमात्म प्रकाश भारिल्ल ने जैन धर्म एवं जैन समाज आधारित जैन पत्रकारिता के प्रति अपनी सहमति प्रदान की।

इस अवसर पर अ.भा.दिग.जैन विद्वत्परिषद् के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ. शान्तिकुमार पाटिल, दिग. जैन महासमिति सांगानेर संभाग के अध्यक्ष एवं विद्वत्परिषद् जयपुर महानगर के अध्यक्ष कैलाश मलैया, अ.भा.जैन पत्र सम्पादक संघ राजस्थान के अध्यक्ष डॉ. अरविन्द जैन, जैन पाठशाला समिति जयपुर के अध्यक्ष डॉ. भागचन्द जैन एवं समस्त मंचासीन अतिथियों द्वारा डॉ. अखिल बंसल का तिलक, माला, शॉल, पगडी एवं गिफ्ट प्रदान कर भव्य सम्मान किया गया।

मुख्य अतिथि प्रवीणचंद छाबडा ने पत्रों के भौतिक एवं वैचारिक चेतना पर प्रकाश डाला। सपना नहीं संकल्प के साथ काम करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि पूर्व आई ए एस एन.के.सेठी ने समाज सुधार के लिए पत्रकारिता को महत्वपूर्ण बताया। सभाध्यक्ष मिलाप चंद डंडिया ने पत्रकारिता के निर्भीक, निष्पक्ष एवं संघर्षशील गुणों की चर्चा करते हुए समन्वय वाणी के सम्पादक अखिल बंसल को बधाई तथा शुभकामनाएं दीं।

अन्त में सभा संचालक डॉ. शान्तिकुमार पाटिल ने सबका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में डा.एन.के.खींचा, पत्रकार वी.बी.जैन, हीराचंद वैद, महावीर सोनी, प्रो. श्रीयांस सिंघई, प्रो. गजेन्द्र जैन, पं.राकेश शास्त्री, डा.महिमा जैन, डा.सतेन्द्र जैन, डा.दर्शना जैन, प्रो. अध्यात्म जैन, अंशुल जैन आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। **-अखिल बंसल**

देव शास्त्र गुरु की संगति से जीवन में सुख मिलता है : आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज

पारसोला (विश्व परिवार)। पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज पारसोला सन्मति भवन में संघ सहित विराजित है। पाषाण को शिल्पकार की संगति मिलती है तब उसे मूर्ति बना देता है, मूर्ति को प्रतिष्ठाचार्य की संगति मिलती है तो वह उसका पंचकल्याणक करते हैं, इस मूर्ति को जब आचार्य मुनि साधु की संगति मिलती है तो वह मूर्ति सूरी मंत्र संस्कार देने से भगवान बन जाती है। क्योंकि उस पत्थर की प्रतिमा में सूरी मंत्र देने से वह मूर्ति भव्यता को भगवता को प्राप्त हो जाती है। इस भगवान की मूर्ति के आप दर्शन अभिषेक पूजन अर्चना करते हैं यह मंगल देशना पंचम पट्टाधीश 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने पारसोला की धर्म सभा में प्रगट की।

ब्रह्मचारी गज्जू भैया, राजेश पंचोलिया अनुसार आचार्य श्री ने आगे उपदेश में बताया कि भगवान की प्रतिमा के दर्शन, अभिषेक, पूजन, भक्ति, अर्चना से सुख की प्राप्ति करते हैं। संसार का वातावरण दुखमय है, भौतिक साधनों से क्षणिक सुख मिलता है संसार के वातावरण में अशांति मिलती है अशांति ही दुख देता है। इसलिए संस्कार संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है जैसी हम संगति करते हैं उसका वैसा परिणाम मिलता है।आचार्य श्री ने पानी की बूंद का उदाहरण देकर बताया की पानी की बूंद जैसी संगति करती है वैसा उसका असर होता है पानी की बूंद गन्ने में जाने से गन्ना मीठा हो जाता है, पानी की बूंद कर सर्प के मुंह में जाती है तो पानी की वह बूंद जहर हो जाती है, वही पानी की बूंद जब किसी सीप में जाती है तो वह पानी की बूंद मोती बन जाती है। इसी प्रकार स्वर्ण पाषाण में कुशल कारीगर उसमें से स्वर्ण निकालने में सफल होता है आप बांसवाड़ा समाज ने महावीर जयंती हेतु संघ सानिध्य में मनाने हेतु निवेदन किया साधु समागम की संगति प्राप्त कर जीवन में परिवर्तन आना चाहिए क्योंकि हमने अनंत भव बिता दिए संसार में भ्रमण करते हुए संसार रूपी समुद्र में हमें अभी तक किनारा नहीं मिला है सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव को चारण रिद्धि धारी मुनियों के संबोधन से उस संगति से उस सिंह के परिणाम सुधर गए, भव सुधर गया।इसलिए आपको देव शास्त्र गुरु की संगति करना चाहिए इससे जीवन में सुख प्राप्त होता है। देव शास्त्र गुरु की संगति से जीवन में परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ कर मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। आचार्य श्री के चरण प्रक्षालन एवम जिनवाणी भेट अतिथियों ने की बांसवाड़ा समाज के पंचों का स्वागत पारसोला समाज द्वारा किया गया। **-राजेश पंचोलिया**

डोंगरगढ़ चैत्र नवरात्रि मेला में 800 से अधिक पुलिसकर्मी होंगे ड्यूटी में तैनात

राजनांदगांव (आरएनएस)। आज से 17 अप्रैल तक मां बम्लेश्वरी डोंगरगढ़ चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जायेगा। इस दौरान डोंगरगढ़ में मां बम्लेश्वरी के दर्शन हेतु श्रद्धालुगण लाखों की संख्या में आने की संभावना है। इस दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं सम्पूर्ण नवरात्रि पर्व को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अलग-अलग जिलों का बल बुलाया गया है जिसमें पुलिस जिला बल, सीएएफ होम गार्ड, यातायात पुलिस शामिल हैं। सम्पूर्ण मेला व्यवस्था को 04 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें लगभग 800 से अधिक पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का ड्यूटी लगाया गया है, जिसे क्षीरपानी परिसर में श्री बी.पी.राजभानू, सेनानी 08 वीं वाहिनी छसबल राजनांदगांव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन श्री मुकेश ठाकुर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव राहुल देव शर्मा द्वारा मेला ड्यूटी पर लगे बल को ब्रीफकर ड्यूटी वितरण किया गया। यातायात पुलिस द्वारा अंजोरा बाईपास से रामदरबार, सुकुलदैहान, मुसरा होते हुए डोंगरगढ़ तक पैदल यात्रियों के लिए जगह-जगह बैरिकेट व पुलिस जवान तैनात किया गया है। उपर माँ बम्लेश्वरी मंदिर से निचे माँ बम्लेश्वरी मंदिर तक पुलिस जवानों को तैनात किया गया है ताकि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार का परेशानियों का सामना न करना पड़े।

11 अप्रैल- मुनि दीक्षा दिवस पर विशेष : आचार्य श्री 108 अतिवीर जी मुनिराज



दिल्ली (विश्व परिवार)। प्रशममूर्ति आचार्य श्री 108 शान्तिसागर जी महाराज (छाणी) की पट्ट परम्परा में पंचम पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज ने अपनी पारखी नज़रों से एक अनमोल रत्न को तराशा और जैन समाज को मुनि श्री 108 अतिवीर जी महाराज के रूप में एक दिव्य व अद्वितीय संत प्रदान किया। पूज्य आचार्य श्री ने अतिशय क्षेत्र बड़ागांव स्थित विश्वप्रसिद्ध त्रिलोकतीर्थ धाम के प्रांगण में मेरु मन्दिर के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन प्रसंग पर भगवान महावीर जन्म कल्याणक के पुनीत अवसर पर दिनांक 11 अप्रैल 2006 को राजधानी दिल्ली निवासी ब्र. नीरज जैन को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर कृतार्थ किया। आपकी छलछलाती मंद-मंद मुस्कान हर बाल-वृद्ध को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लेती है। लगभग 28 वर्षों की सतत संयम साधना से फलीभूत अथाह ज्ञान भंडार, तप-त्याग-साधना, समाज-उद्धारक मानसिकता, स्व-पर कल्याण की भावना, एकता व संगठन, साधर्मी वात्सल्य, गंभीर चिंतन, धैर्य आदि अनेकों योग्य गुणों को देखते हुए यह कहना अतिश्योक्ति ना होगी कि आप जैन धर्म के वाङ्मय में एक प्रखर प्रकाश पुंज की भांति दैदीप्यमान नक्षत्र बनकर जगमगाएंगे।

पूज्य गुरुवर ने अपने प्रियाग्र शिष्य की विशेष योग्यता, दिव्यता, संगठन व संचालन कुशलता एवं गंभीरता को देखते हुए एलाचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने की घोषणा कर भक्तों को प्रफुल्लित कर दिया। पूज्य आचार्य श्री ने कहा कि मुनि श्री द्वारा अल्पसमय में ही अभूतपूर्व ज्ञान-गंगा का प्रवाह निरंतर गतिमान है तथा विभिन्न नगरों में व्यापक धर्म प्रभावना संपन्न हो रही है। छाणी परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज के जन्म-दिवस एवं शरद-पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर दिनांक 04 अक्टूबर 2009 को सी.बी.डी. ग्राउंड, ऋषभ विहार, दिल्ली में दिगंबर-श्वेताम्बर संतों की उपस्थिति में तथा लगभग 15 हजार धर्मानुरागी बंधुओं के समक्ष विधि-विधान पूर्वक पूज्य आचार्य श्री ने अपने शिक्षा-दीक्षा वरदहस्त कर-कमलों द्वारा मुनि श्री 108 अतिवीर जी महाराज को एलाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया।

आचार्य श्री द्वारा दीक्षित समस्त शिष्य समुदाय में आप एकमात्र ऐसे शिष्य हैं जिन्हें उन्होंने स्वयं कोई पद प्रदान किया है। गहन चिंतक, विचारक, प्रवचनकार व कुशल मार्गदर्शक के रूप में आपने अल्पसमय में ही जैन समाज को नयी दिशा प्रदान करने की सार्थक पहल की। आप हर उस कार्य को सहजता से कर लेते हैं जिसके लिए जैन समाज एक सही नेतृत्व का इंतज़ार करता रह जाता है। युवा पीढ़ी को कुशलतापूर्वक सही दिशा में अग्रसर करने में आपके हर कदम पर हज़ारों युवा चलने को तैयार हो जाते हैं। आने वाला कल जिनके हाथों में है, उनको सही दिशा में आगे बढ़ाने की कला के भण्डार हैं। स्पष्ट सोच, स्वच्छ कार्यप्रणाली, निश्चित दिशा, हर विचार को यथार्थ में सहजता से अग्रसित कर देती है। आपके द्वारा विभिन्न प्रसंगों पर किये गए उत्कृष्ट कार्य श्रमण व श्रावक के लिए प्रेरक उदाहरण हैं।

गुरुवर द्वारा ही आपको आचार्य पद से सुशोभित किया जाना था परन्तु अचानक ही उनके समाधिमरण हो जाने से यह कार्य अधूरा रह गया। गुरुवर की असीम अनुकम्पा से गुरुभ्राता परम पूज्य सल्लेखनारत आचार्य श्री 108 मेरु भूषण जी महाराज ने अपने परम प्रभावक अनुज-भ्राता एलाचार्य श्री 108 अतिवीर जी महाराज को श्रमण परंपरा के वर्तमान में सर्वोच्च पद आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने की घोषणा की। आपकी विलक्षण प्रतिभा व विशेषताओं को देखते हुए छाणी परंपरा के द्वितीय पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य श्री 108 विजय सागर जी महाराज के समाधि दिवस के प्रसंग पर दिनांक 20 दिसम्बर 2020 को एम. डी. जैन कॉलेज, हरीपर्वत, आगरा (उ.प्र.) में हजारों गुरुभक्तों के समक्ष तथा अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शास्त्री परिषद् के विद्वानों की अनुमोदना के साथ विधि-विधान पूर्वक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 अतिवीर जी मुनिराज के श्रीचरणों में 19वें मुनि दीक्षा दिवस के पुनीत अवसर पर शत-शत नमन। **-जैन यूथ काउंसिल**

भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन के सहयोग से जैन मंदिर परिसर में जल सेवा केंद्र का शुभारंभ

राघौगढ़ (विश्व परिवार)। राघौगढ़ में जैन मिलन राघौगढ़ द्वारा भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग से श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में वाटर कूलर का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार जैन ने विधि विधान से पूजा एवं वाटर कूलर पर स्वास्तिक बनाकर शुभारंभ किया। सड़क चलते राहगीरों को भीषण गर्मी के मौसम में शीतल जल सुविधा से मिले इस हेतु वाटर कूलर की दो टोटी सड़क पर भी लगाई गई है। जल सेवा केंद्र वाटर कूलर के संचालन में सहयोग दिगंबर जैन समाज राघौगढ़ का है।

जैन मिलन राघौगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जैन मंत्री विकास कुमार जैन ने सभी का स्वागत किया।शाखा मंत्री विकास कुमार जैन ने इस अवसर पर जानकारी दी शीघ्र ही एक वाटर कूलर जल सेवा केंद्र संत सुधा सागर धाम पर अनुमेष किरण सेवा न्यास इंदौर के सहयोग से जैन मिलन द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री शीतल चंद जैन कठारी, क्षेत्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार जैन भारिल्य शाखा के उपाध्यक्ष मुकेश श्रीमाल, पूर्व अध्यक्ष द्वय राजेश कुमार जैन कांट्रेक्टर,एवं विनय कुमार जैन बासु, प्रचार मंत्री राजीव कुमार जैन, अनिल कुमार जैन बलिया, सुकुमाल जैन, संजीव कुमार जैन पप्पू, राजेश कुमार जैन, प्रमोद कुमार जैन गुल्लू,दीपक कुमार रावत, विवेक कुमार सुमन आदि उपस्थित थे। शाखा अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जैन एवं शाखा मंत्री विकास कुमार जैन ने भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन से सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय जैन गुना एवं भारतीय जैन मिलन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जैन बर्फ वाले मेरठ का आभार व्यक्त किया है वाटर कूलर के संचालन के लिए सहयोग करने के लिए जैन समाज राघौगढ़ के अध्यक्ष अजय कुमार रावत, संरक्षक पवन कुमार जैन का भी आभार व्यक्त किया है। **-विजय जैन**

www.dainikvishwapariwar.com
vishwapariwarraipur@gmail.com

दैनिक
विश्व परिवार

बस्तर संभाग

रायपुर मंगलवार 09 अप्रैल 2024

संक्षिप्त समाचार

साहू समाज ने सुभाष चैक में मनाई मां कर्मा जयंती

कोरबा(विश्व परिवार)। माता कर्मा सेवा समिति कोरबा के तत्वधान में माता कर्मा जयंती समारोह का आयोजन सुभाष चैक निहारिका कोरबा छत्तीसगढ़ में किया गया। सर्वप्रथम माता कर्मा की पूजा-अर्चना कर आरती गीतों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कर पक्ष माता कर्मा की वेबसाइट का लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में गोपाल साहू पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष साहू संघ छत्तीसगढ़ एवं कोरबा जिला प्रभारी भाजपा उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम में गोपाल साहू ने माता कर्मा की जीवनी पर प्रकाश डाला, प्रेम लाल साहू ने अतिथियों का स्वागत किया, सचिव विनोद कुमार साहू ने समिति के उद्देश्य के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और आने वाले समय में युवक-युवतियों को नई शिक्षा, नई दिशा प्रदान करने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा समाज में रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हुए समिति का वेबसाइट के संबंध में जानकारी प्रदान की। गिरधारी लाल साहू ने माता कर्मा के आदर्श पर विस्तार से जानकारी दी। महेश राम साहू ने माता कर्मा का कविता पाठ किया। कार्यक्रम में खिचड़ी भोग एवं शर्बत पानी पिलाया गया, कार्यक्रम में भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। उक्ताशय की जानकारी समिति के सचिव विनोद कुमार साहू ने दी है।

सावधान : बिजली कंपनी में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा

कोरबा(विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी में विभिन्न पदों के लिए फर्जी भर्ती की इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जानकारी देकर ठगी करने का प्रयास कुछ लोगों कर रहे हैं। इसकी जानकारी होने के बाद कंपनी प्रबंधन सचेत हो गई है और कंपनी ने ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर ध्यान न नहीं देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक (मानव संसाधन) पीके कश्यप ने बताया कि कतिपय लोगों द्वारा फर्जी जानकारी देकर छात्रों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि विद्युत कंपनी ने इस तरह का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है और न ही इस तरह के पदनाम से कोई सीधी भर्ती होती है। ठगी करने वाले छत्तीसगढ़ शासन और सीएसपीडीसीएल का अधिकृत लोगो (प्रतीक चिन्ह) का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और नियुक्ति पत्र देने के एवज में एक-एक हजार रूपये की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के फर्जी व भ्रामक विज्ञापन के झांसे में न आएं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा राशि की मांग की जाती है, तो इसकी शिकायत पुलिस के समक्ष करें। उन्होंने कहा कि विद्युत कंपनी में सभी भर्तियां विधिवत प्रक्रिया के तहत पूरी की जाती है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर अधिकृत संस्था से परीक्षा लेकर की जाती है। कश्यप ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर छत्तीसगढ़ बिजली विभाग भर्ती के नाम से फर्जी जानकारी साझा की जा रही है, यह पूरी तरह भ्रामक है।

पावर प्लांट से फ्लाई ऐश उड़ी तो होगी कार्रवाई

कोरबा(विश्व परिवार)। लोकसभा चुनाव और गर्मी के मौसम में पर्यावरण संरक्षण मंडल एक्शन मोड पर है। पिछले कई वर्षों से इस सीजन में होने वाली समस्या विभाग की जानकारी में आई है। जन स्वास्थ्य का विषय मानते हुए पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कोरबा जिले के बिजली घर प्रबंधनों को साफ तौर पर कहां है कि अगर गर्मी में उनके यहां से फ्लाई ऐश उड़ती है तो इस पर कार्रवाई करेंगे। कोरबा जिले के लिए फ्लाई ऐश से जुड़ी समस्या कोई अभी की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है और लाखों लोग इससे परेशान है। एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड के रीजनल ऑफिसर पीएस पांडे की ओर से हाल में ही एक आदेश जारी किया गया है । इसमें नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, भारत अल्युमिनियम कंपनी जैसे बड़े उद्योगों को कहा गया है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि गर्मी के मौसम में उनके बिजली घरों से उत्सर्जित होने वाली फ्लाई ऐश किसी भी कीमत पर उडना नहीं चाहिए और उसके जरिए वातावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए।

नदी किनारे खेल रहे थे जुआ, चार गिरफ्तार

धमतरी(विश्व परिवार)। पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय द्वारा अवैध शराब,जुआ,सट्टा अवैध कारोबारियों के विरुद्ध सभी थाना/चौकी प्रभारियों को कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये हैं। इसी तारतम्य में थाना मगरलोड पेट्रोलिंग को मोबाईल से मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम छिपली नदी के किनारे में कुछ लोग रूपये पैसे से हार जीत का दांव लगाकर काट पत्ती ताश नामक जुआ खेल रहे है। जिस सूचना पर ग्राम छिपली नदी के पास में जाकर घेराबंदी कर ताश नामक जुआ खेलते 04 आरोपियान पकड़े गये। आरोपियों के विरुद्ध थाना मगरलोड के अपराध क्र.127/24 धारा 3(2)(छ0ग0) जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत वैधानिक कार्यवाही कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण का किया अवलोकन

निर्वाचन आयोग के यूट्यूब चैनल एवं व्हाट्सएप चैनल भी सर्च कर मतदान दल निर्वाचन से संबंधी ले सकते है जानकारी

मतदान दल के अधिकारी-कर्मचारी सजगता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें-कंगाले

दंतेवाड़ा(विश्व परिवार)। आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले का प्रवास जिले में हुआ। इस दौरान उन्होंने स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल दंतेवाड़ा में मतदान दलों को दिये जा रहे प्रषिक्षण सत्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन में मतदान दायित्व के सफल एवं निर्विघ्न सम्पादन हेतु बारीकी से प्रशिक्षण प्राप्त करें। इस दौरान मतदान सम्बन्धी प्रत्येक पहलुओं की जानकारी लेने के साथ ही ईव्हीएम हेंडआन करना, मतदान आरंभ करने के पूर्व की तैयारी, माकपोल सहित समस्त प्रपत्रों को सतर्कतापूर्वक प्रतिपूरित करने संबंधी कार्य की गहन जानकारी लेवें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने आगे कहा कि आयोग द्वारा यूट्यूब चैनल एवं व्हाट्सएप चैनल में निर्वाचन प्रशिक्षण सम्बन्धी वीडियो अपलोड किया गया। जहां प्रषिक्षण संबंधी बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी गयी है। जिसका लाभ प्रषिक्षण दल ले सकते है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन में मतदान दलों का हिस्सा रहे चुके व्यक्ति नए साथियों को ट्रेनिंग की जानकारी दे ताकि मतदान केन्द्रों में मतदान प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझा सकेगें। इसके अलावा उन्होंने मतदान दलों को पिछले निर्वाचन में मिले मानदेय और अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने ट्रेनिंग दे रहे मास्टर टेऊनर से भी प्रषिक्षण संबंधित विषयों को पूछा। इस अवलोकन के दौरान उन्होंने मतदान दलों क लिए गूगल फार्म टेस्ट आनलाइन किए जाने तथा कम्युनिकेषन एप प्रारंभ करने के लिए जिला प्रषासन की सराहना भी किया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्ट्रांग रूम सहित मतगणना केन्द्र का लिया जायजा

दंतेवाड़ा(विश्व परिवार)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ श्रीमती रीना बाबा कंगाले ने 07 अप्रैल को दन्तेवाड़ा प्रवास पर लोकसभा निर्वाचन 2024 निर्वाचन क्षेत्र 88 दन्तेवाड़ा की मतदान केंद्र के तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम तथा मतगणना केन्द्र का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारी समयपूर्व सुनिश्चित करने को कहा। मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने स्ट्रांग रूम तथा मतगणना केन्द्र में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। वहीं मतगणना कक्ष का अवलोकन किया। उन्होंने मतगणना केन्द्र परिसर में मीडिया सेंटर तैयार कर मीडिया प्रतिनिधियों के लिये आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर श्री जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर श्री राजेश पात्रे सहित उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिषेक तिवारी और निर्वाचन दायित्व से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद थे।

अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाए चुनाव का राष्ट्रीय पर्व - कलेक्टर संजय अग्रवाल

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीप महोत्सव में सभी को मतदाता जागरूकता की दिलाई शपथ

राजनांदगांव(विश्व परिवार)। स्वीप महोत्सव में विशाल मानव श्रृंखला के माध्यम से वोट राजनांदगांव 26 अप्रैल 2024 बनाकर शत प्रतिशत मतदान करने का संदेश दिया गया। पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आज आयोजित स्वीप महोत्सव में अभूतपूर्व उत्साह के साथ नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने सभी को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत एवं स्वीप नोडल अधिकारी सुश्री सुरूचि सिंह, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री मृणाल चौबे उपस्थित थे। स्वीप महोत्सव में युवाओं एवं बिहान समूह की महिलाओं ने मतदाताओं को जागरूक करने ऊर्जा एवं उत्साह के साथ बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। स्वीप महोत्सव में युवाओं ने म्यूजिकल कॉन्सर्ट द्वारा स्वीप एवं देश भक्तिपूर्ण गीतों से समा बांधे रखा, वहीं रैप सांग ने सब का दिल जीत लिया। राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागी खिलाडियों ने बहुत अच्छा रोप स्कीपिंग किया तथा कमला कॉलेज एवं दिग्विजय कॉलेज के युवाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। बिहान समूह की महिलाओं द्वारा सुआ गीत में बहुत अच्छा नृत्य प्रस्तुत कर मतदान के दिन सभी कार्य छोड़कर सबसे पहले मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। स्वीप महोत्सव में स्वीप सेल्फी जोन बनाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ सेल्फी ली और 26 अप्रैल को मतदान करने के लिए आव्हान किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि हमारे देश में सभी पर्व बहुत उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे ही चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व है इसे हमें खुशी एवं उत्साह के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि प्रत्येक मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज है वे मतदान केन्द्र में जाकर अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि यहां से प्रेरणा लेकर अन्य 10-10 लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें अन्य 10-10 लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने कहा। जिससे जिले के सभी मतदाता जागरूक होंगे और अपने मतदान के अधिकार और कर्तव्य को अच्छे से समझेंगे।

दो बच्चों के पिता ने प्रेमिका संग फांसी लगाकर दी जान

भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के अर्जुनी की घटना

बलौदाबाजार(विश्व परिवार)। जिले के भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के अर्जुनी में एक प्रेमी जोड़े ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। जानकारी के अनुसार, भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम अर्जुनी रवानभाठा में बीती रात प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को चुनरी से बांध कर गमछे से पेड़ में लटक कर फांसी लगा ली है. मृतक का नाम दीपक यादव पिता महेश यादव उम्र 27 वर्ष अर्जुनी गांव और मृतिका का नाम किरण कटारे बताया जा रहा है। मृतक पूर्व से शादीशुदा है, जिसके दो बच्चे एक 8 वर्ष की लड़की और 3 वर्ष का लड़का है. दोनों के बीच काफी समय से प्रेमसंबंध चल रहा था. जिस पर मृतक की पत्नी हीरा बाई यादव ने मृतिका किरण कटारे को अपने पति से दूर रहने की समझाइश दी थी पर वे दोनों नहीं माने और एक साथ जीवन नहीं बिता सके तो मौत को गले लगा लिया . दोनों के शव एक साथ पेड़ से लटके और एक दूसरे से बंधे हुए मिले हैं. साथ ही पैर जमीन से टिका हुआ है जो संदेहास्पद भी प्रतीत होता है. फिलहाल, घटना की सूचना पर भाटापारा ग्रामीण पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. दोनों से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि दोनों ने आत्महत्या की है या मामला कुछ और है।

दिव्यांगजनों ने शत-प्रतिशत मतदान करने एवं करवाने का लिया संकल्प

राजनांदगांव(विश्व परिवार)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में विभिन्न संस्थाओं द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं स्वीप नोडल सुश्री रश्मि सिंह स्वीप कार्यक्रम के तहत अभिलाषा दिव्यांग केन्द्र पहुंचकर दिव्यांगजनों से मतदान के महत्व के संबंध में चर्चा की। उन्होंने सभी को 26 अप्रैल को मतदान केन्द्र पहुंचकर मताधिकार का उपयोग करने तथा अपने परिवार, रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों को शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित करने कहा। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि मतदान केन्द्रों में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए व्हीलचेयर सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों को मतदान करने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। उन्होंने संस्था के सभी दिव्यांगजनों को अपने पालक एवं रिश्तेदारों को पत्र लिखकर लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के रूप में अपना योगदान देने के लिए आग्रह किया। इस दौरान सभी ने दिव्यांगजनों के साथ शत-प्रतिशत मतदान करने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर उपसंचालक समाज कल्याण श्री ठाकुर, परियोजना अधिकारी साक्षरता श्रीमती रश्मि सिंह, जिला स्वीप टीम से श्री मनोज मरकाम, श्री बुद्ध प्रकाश गायकवाड़, श्री रावटे, श्री नंदनवार, श्री मनोज चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

निर्माणाधीन उच्चस्तरीय पुल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

कांकेर(विश्व परिवार)। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज नंदनमारा में निर्माणाधीन उच्चस्तरीय पुल का पुन: निरीक्षण कर पूरी गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य करने तथा निर्धारित समय-सीमा में उसे पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों को दिए। इस दौरान मौके पर बिना हेलमेट के कार्य कर रहे श्रमिकों और कर्मचारियों को देख कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में सुरक्षात्मक उपायों की अनदेखी न करें। उन्होंने कार्य स्थल पर मौजूद सभी कर्मचारियों को तत्काल

हेलमेट प्रदाय करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर सिंह ने आज सुबह 10 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर माकड़ी के समीप पुल का स्थल निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान पियर (कॉलम) पर गर्डर लांचिंग का कार्य देखा, साथ ही पुल के दोनों तरफ तैयार की जा रही एप्रोच रोड का भी मौके पर मुआयना किया। कलेक्टर ने 15 जून के पूर्व पुल निर्माण से संबंधित सभी कार्य हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि बारिश के पहले पुल के ऊपर से वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके। इसके पश्चात कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित माकड़ीखूना से नारा एवं अलबेलापारा से बागोडार मार्ग का निरीक्षण कर भारी वाहनों के चालन से बने गड्ढों को भरने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने किया ट्रांजिट हॉस्टल का निरीक्षण

बिजली, पानी, सफ़ाई का अवलोकन किया, सुरक्षा व्यवस्था एवं गार्ड की जानकारी ली

बेमेतरा(विश्व परिवार)। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बीते बुधवार को देर शाम ज़िला मुख्यालय स्थित ट्रांजिट हॉस्टल का ज़िला अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया । उन्होंने ट्रांजिट हॉस्टल की ज़रूरी व्यवस्थाओं को भी देखा। कलेक्टर ने हॉस्टल के कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली, पानी, सफ़ाई का अवलोकन किया।सुरक्षा व्यवस्था एवं गार्ड की जानकारी ली । उन्होंने परिसर का भी निरीक्षण किया। अपर कलेक्टर डॉ.अनिल बाजपेयी, गुड्डूलाल जगत, संयुक्त कलेक्टर अंकिता गर्ग,डिप्टी कलेक्टर श्रीमती दिव्या पोटाई, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण श्री निर्मल सिंह उपस्थित थे । ट्रांजिट हॉस्टल में 24 अधिकारी-कर्मचारियों के रूकने लायक व्यवस्था है। यह हॉस्टल अगस्त 2017 में बन कर तैयार हुआ था। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। कार्यपालन अभियंता निर्मल सिंह ने बताया कि ट्रांजिट हॉस्टल में जिले में आने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को ठहरने की सुविधा है । जब तक उन्हें आवास अलॉट नहीं होता वह हॉस्टल में ठहर सकते है। अधिकारियों / कर्मचारियों को आवंटन ज़रूरत के मुताबिक़ कलेक्टर द्वारा किया जाता है।इस हॉस्टल का संचालन लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है।

खिलाड़ियों ने शत प्रतिशत मतदान के लिए लगाई मैराथन दौड़

राजनांदगांव(विश्व परिवार)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने खिलाड़ी, व्यापारी, संस्थान, स्वसहायता समूह की महिलाएं सहित अन्य संस्थान आगे आ रहे हैं। जिससे जिले में मतदाता जागरूकता की गूंज घर-घर तक पहुंच रही है। स्वीप कार्यक्रम के तहत शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य के लिए खेल समुदाय भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री मृणाल चौबे के नेतृत्व में जिले के सभी खेल प्रशिक्षु स्वीप गतिविधियों में शामिल होकर मतदान करने का संदेश दे रहे हैं। मतदाताओं को मतदान का संदेश देने के लिए राजनांदगांव शहर में स्वीप मैराथन का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के विभिन्न खिलाडियों ने मैराथन दौड़ लगाकर और रैली निकालकर मतदाता को मतदान के लिए जागरूक किया। खिलाडियों ने घर-घर जाकर शहरी मतदाताओं को मतदान तिथि 26 अप्रैल को मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें मतदान के लिए जागरूक करने पाम्पलेट का भी वितरण किया।

व्यापार समाचार

माइक्रोसॉफ्ट ने चेताया, लोकसभा चुनाव में अड़ंगा डाल सकता है चीन, एआई से करेगा खेल

नई दिल्ली(एजेंसी)। इस साल दुनिया के कई प्रमुख देशों में चुनाव हो रहे हैं। इनमें भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन के हैकर्स एआई का उपयोग कर इन चुनावों को बाधित करने का प्रयास करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक चीनी हैकर्स मीम्स, वीडियो और ऑडियो के जरिए चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। टेक दिग्गज के अनुसार, चीन मतदाताओं को विभाजित करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया खातों का उपयोग कर रहा है। कंपनी ने एक पोस्ट में कहा, चीन ने दुनिया भर में अपने लक्ष्यों को साधने के लिए एआई-जनित सामग्री का उपयोग बढ़ा दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) से जुड़े लोगों के भ्रामक सोशल मीडिया खातों ने अमेरिकी मतदाताओं को विभाजित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर विवादास्पद सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इस साल जनवरी में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में भी चीन से जुड़े साइबर हैकर्स ने एआई-जनित सामग्री का उपयोग किया था।

श्रीनी पल्लिया बने विप्रो के नए सीईओ

नई दिल्ली(एजेंसी)। आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी विप्रो ने तत्काल प्रभाव से श्रीनी पल्लिया को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा, पल्लिया ने थिएरी डेलापोर्ट का स्थान लिया है, जो कार्यस्थल के बाहर जुनून को आगे बढ़ाने के लिए पद छोड़ रहे हैं। विप्रो के अध्यक्ष ऋषद प्रेमजी ने कहा, पिछले चार साल में सबसे चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच विप्रो में एक बड़ा बदलाव हुआ है। पल्लिया इस यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। प्रेमजी ने कहा, उनका ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, विकास मानसिकता, मजबूत निष्पादन फोकस और विप्रो के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें (इस भूमिका के लिए) एकदम फिट बनाती है क्योंकि हम विकास और लाभ के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। पल्लिया न्यू जर्सी में रहेंगे और प्रेमजी को रिपोर्ट करेंगे। वह तीन दशकों से अधिक समय से विप्रो के साथ हैं। हाल ही में 'विप्रो के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते रणनीतिक बाजार, अमेरिका 1 के सीईओ' के रूप में कार्यरत हैं। प्रेमजी ने कहा, डेलापोर्ट मई के अंत तक विप्रो के साथ बने रहेंगे और सुचारु हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए पल्लिया और मेरे साथ मिलकर काम करेंगे। पल्लिया 1992 में विप्रो का हिस्सा बने थे और तब से उन्होंने नेतृत्व के कई पदों पर काम किया है, जिसमें विप्रो की उपभोक्ता व्यवसाय इकाई के अध्यक्ष और बिजनेस एप्लीकेशन सर्विसेज के वैश्विक प्रमुख शामिल हैं। इंजीनियरिंग में स्नातक और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु से प्रबंधन अध्ययन में मास्टर डिग्री रखने वाले पल्लिया ने कहा, मैं थिएरी द्वारा स्थापित मजबूत नींव पर निर्माण करने और विप्रो को उसके अगले विकास पथ पर ले जाने के लिए उत्साहित हूं।

जोस बटलर के शतक ने विराट कोहली को पछाड़ा, राजस्थान ने बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया

जयपुर(एजेंसी)। यहां के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 मैच में सलामी बल्लेबाज जोस बटलर ने अपने 100वें आईपीएल मैच में 58 गेंदों में शानदार शतक के साथ फॉर्म में वापसी की। उन्होंने विराट कोहली के शतक को पीछे छोड़ दिया, जिससे राजस्थान रॉयल्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को छह विकेट से हराने में मदद मिली। इसके साथ राजस्थान रॉयल्स ने चार मैचों में से चार में जीत हासिल करने का रिकार्ड बनाया। कोहली ने अपना आठवां आईपीएल शतक और टी20 क्रिकेट में कुल मिलाकर नौवां शतक जड़ने के बाद 72 गेंदों में नाबाद 113 रन बनाकर आरसीबी को 183/3 के स्कोर तक पहुंचाया, इसके बाद बटलर ने शुरुआती तूफान का सामना किया और फिर आक्रामक खेल को पूर्णता तक पहुंचाया। उन्होंने 58 गेंदों पर नौ चौकों और चार छक्कों की मदद से 100 रन बनाए। अपनी शानदार पारी के जरिए बटलर के.एल.राहुल के बाद अपने 100वें आईपीएल मैच में 100 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं। ऐसी पिच पर, जहां खेल आगे बढ़ने के साथ स्ट्रोक खेलना बेहतर होता गया, बटलर को कप्तान संजू सैमसन का भी अच्छा समर्थन मिला। उन्होंने 42 गेंदों में 69 रन बनाए। आरआर ने पांच गेंद बाकी रहते लक्ष्य का पीछा पूरा किया और अब अंक तालिका में शीर्ष पर है। आरसीबी के लिए यह वही पुरानी कहानी थी, जिसमें गेंद के साथ पैठ की कमी थी और रीस टॉपले को छोड़कर अन्य खिलाड़ी दर्शकों के सामने उल्लेखनीय प्रदर्शन करने में विफल रहे। 184 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरआर की शुरुआत आदर्श नहीं रही, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने रीस टॉपले की एक गेंद को मिड-ऑफ पर खींच लिया और शून्य पर आउट हो गए। सैमसन ने तीन चौके लगाए। इससे पहले बटलर ने दिनेश कार्तिक की गेंद पर चौका लगाया। इसके बाद मोहम्मद सिराज के चौथे ओवर में गेंदबाजी में रन आउट हो-होते बच गए। बटलर ने इसके बाद यश दयाल की गेंद पर दो ऑफ-साइड चौके लगाए और बाएं हाथ के स्पिनर मयंक डागर को 18 रन के ओवर में तीन चौके और एक छक्का लगाया। आरआर ने पावर प्ले के अंत में छह ओवर में 54/1 रन बनाए। बटलर ने 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करने से पहले कैमरून ग्रीन की गेंद पर एक रन बनाया। सैमसन ने सिराज की गेंद पर अपर कट छक्का जड़कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद डागर की गेंद पर दो चौके और एक छक्का लगाकर 33 गेंदों में सीजन का अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। 148 रन की साझेदारी तब समाप्त हुई, जब सैमसन सिराज की गेंद पर सही समय पर पुल नहीं कर सके और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे। हालांकि रियान पराग और ध्रुव जुरेल जल्दी-जल्दी आउट हो गए, लेकिन बटलर और शिम्रोन हेटमायर ने बचे हुए रन बनाए। बटलर ने डीप स्क्वायर लेग के बाईं ओर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और आरआर को उसके घर में रोमांचक जीत दिलाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 183/3 (विराट कोहली 113 नाबाद, फाफ डु प्लेसिस 44; युजवेंद्र चहल 2-34, नांद्रे बर्गर 1-33) राजस्थान रॉयल्स से 19.1 ओवर में 189/4 (जोस बटलर 100 नाबाद) से संजू सैमसन 69; रीस टॉपले 2-27, मोहम्मद सिराज 1-35) छह विकेट से हार गए।

अभिषेक की आंधी में उड़ा सीएसके, हैदराबाद ने छह विकेट से मैच जीता

हैदराबाद(एजेंसी)। बायें हाथ के युवा ओपनर अभिषेक की आंधी पर सवार सनराइजर्स हैदराबाद ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स को 11 गेंद शेष रहते छह विकेट से हराकर चारों खाने चित कर दिया। धीमी पिच पर चेन्नई को 20 ओवर में 165/5 पर रोकने के बाद हैदराबाद ने 18.1 ओवर में चार विकेट पर 166 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इम्पैक्ट प्लेयर ट्रेविस हेड (31) के साथ ओपनिंग करने आये अभिषेक ने मात्र 12 गेंद में चार छक्कों और तीन चौकों के साथ 37 रन बनाये। वह तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर जब दीपक चाहर की गेंद पर रवींद्र जडेजा के हाथों कैच हुए तब तक हैदराबाद के 46 रन बन चुके थे। इसके बाद बाकी के बल्लेबाजों ने आराम से लक्ष्य हासिल कर लिया। एडेन मारक्रम ने 50 (36 गेंद में) की पारी खेली। शहबाज अहमद ने 18 रन बनाये। हेनरिक ने नाबाद 10 रन बनाये। अंतिम समय में हाथ खोलते हुए नितीश रेड्डी ने आठ गेंद में 14 रनों की तेज पारी खेली। उन्होंने अपनी छोटी पारी में एक चौका और एक छक्का जड़ा। चेन्नई की तरफ से मोइन अली ने शहबाज और मारक्रम को एलबीडब्ल्यू आउट किया। इससे पहले, हैदराबाद के गेंदबाजों ने पुरानी गेंद को ज्यादा तेज करने की कोशिश नहीं की। इससे गेंद बल्ले पर अच्छे से नहीं आ रही थी जिससे शॉट खेलना मुश्किल हो रहा था। चेन्नई के बल्लेबाज विकेट हाथ में होने के बावजूद आखिरी पांच ओवरों में सिर्फ 38 रन बना सके। कप्तान पैट कमिंस ने सात गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने सबसे अधिक 45 रन (24 गेंद में) बनाये जिसमें दो चौके और चार छक्के शामिल थे। पहले गेंदबाजी करते हुए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को कुछ शुरुआती स्विंग मिली और उन्होंने चौथे ओवर में रचिन रवींद्र को मिड-ऑन पर कैच कराकर आईपीएल 2024 में अपना पहला विकेट लिया। अजिंक्य रहाणे ने 30 गेंद में 35 रन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 21 गेंद में 26 रनों की पारी खेली। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर सात ओवर में 54/1 तक पहुंचाया। सीएसके को आठवें ओवर की पहली गेंद पर झटका लगा जब गायकवाड़ शाहबाज अहमद की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर आउट हो गए। शिवम दुबे ने स्पिनरों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अहमद को छक्का और चौका लगाया, इसके बाद मयंक मारकंडे को भी बाउंड्री का रास्ता दिखाया। अपनी तेज पारी में दुबे ने टी. नटराजन को मिड-विकेट पर लगातार दो छक्के लगाकर सभी को रोमांचित कर दिया। रहाणे ने दूसरा छोर संभाले रखा। कमिंस की ऑफ स्टंप के बाहर की एक धीमी बाउंसर पर दुबे बैकवर्ड पॉइंट पर कैच दे बैठे। रहाणे भी जयदेव उनादकट की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट पर लपके गये। अंतिम ओवर में डेरिल मिचेल ने नटराजन की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हुए।

भारतीय अमेरिकी गोल्फर अक्षय भाटिया अगस्टा बर्थ से एक राउंड दूर

सैन एंटोनियो(एजेंसी)। भारतीय अमेरिकी गोल्फर अक्षय भाटिया आखिरी मिनट में अगस्टा मास्टर्स में जगह बनाने और दूसरे पीजीए टूर खिताब की राह पर बने रहे, क्योंकि उन्होंने टेक्सास ओपन में 54 होल के बाद चार शॉट की बढ़त बना ली है। भाटिया ने टीपीसी सैन एंटोनियो में अपने आखिरी दो होल में बर्डी लगाकर 4-अंडर 68 का कार्ड खेला और अंतिम राउंड में जाने से पहले डेनी मैकार्थी पर चार शॉट की बढ़त बना ली, क्योंकि वह मास्टर्स में अंतिम स्थान पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका स्कोर 15-अंडर 201 है। मैकार्थी के बाद, बढ़त के अगले निकटतम खिलाड़ी ब्रेंडन टॉड थे, जिन्होंने 70 का स्कोर किया और सात शॉट पीछे थे। मैकार्थी एकमात्र खिलाड़ी थे जो 22 वर्षीय भाटिया के करीब रहे। बैक नाइन के मध्य में चार होल वाले स्ट्रेच में उनकी तीन बर्डी से उन्हें मदद मिली। वैलेरो टेक्सास ओपन में भाटिया की बढ़त 20 साल में सबसे बड़ी है। रेस माई रेस संदेश के साथ भाटिया, जिन्होंने एक मनोवैज्ञानिक के साथ काम किया था, मानसिक खेल पर अतिरिक्त मेहनत कर रहे हैं। एक जीत भाटिया को मास्टर्स में अंतिम स्थान दिलाएगी, अगर वैलेरो टेक्सास ओपन विजेता को पहले से ही छूट नहीं मिली है। पिछले जून के बाद से अपनी दूसरी जीत के साथ उन्हें यू.एस. ओपन के लिए भी छूट मिल जाएगी। भाटिया ने पिछली गर्मियों में बाराकुडा चैंपियनशिप जीती थी, जिसे ओपन चैंपियनशिप के दौरान एक वैकल्पिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। मैकार्थी ने पीजीए टूर पर कभी जीत हासिल नहीं की है, लेकिन वह अगले सप्ताह अगस्टा नेशनल में पदार्पण करेंगे क्योंकि वह आधिकारिक विश्व गोल्फ रैंकिंग में शीर्ष 50 में हैं।

क्राफ्टन इंडिया के सीईओ इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त

नई दिल्ली(एजेंसी)। इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी (आईडीजीएस) ने बीजीएमआई डेवलपर क्राफ्टन इंडिया के सीईओ सीन ह्युनिल सोहन को अपना नया वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। आईडीजीएस ने कहा, वीपी के रूप में सोहन भारत में डिजिटल गेमिंग के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वह गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर समावेशिता, विविधता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाली पहलों को चलाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाएंगे। सीन ह्युनिल सोहन ने कहा, यह भूमिका भारत में गेमिंग उद्योग के विकास में योगदान करने का एक जबरदस्त अवसर प्रस्तुत करती है। मैं इनोवेशन, समावेशिता को बढ़ावा देने और भारत में गेमिंग इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। वह उन नीतियों की वकालत करने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे जो गेमिंग उद्योग की निरंतर वृद्धि का समर्थन करती हैं और इसके सामाजिक प्रभाव को बढ़ाती हैं। आईडीजीएस के प्रेसिडेंट राजन नवानी ने कहा, स्ट्रांग बैकग्राउंड और नेतृत्व के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, सोहन गेमिंग उद्योग में एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हैं। उद्योग जगत का उनका अनुभव, उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमताओं के साथ, निस्संदेह समाज की निरंतर सफलता के पीछे एक प्रेरक शक्ति होगी।

आदित्य बिड़ला समूह को 2,075 करोड़ रुपये में तरजीही शेयर बेचेगी वोडाफोन-आईडिया

नई दिल्ली(एजेंसी)। वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने आदित्य बिड़ला समूह की इकाई को 2,075 करोड़ रुपये के तरजीही शेयर बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। निदेशक मंडल ने ओरियाना इन्वेस्टमेंट्स को 14.87 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 10 रुपये अंकित मूल्य के 1,39,54,27,034 इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे दी। इस प्रकार इन शेयरों के लिए कुल 2,075 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। आदित्य बिड़ला समूह ओरियाना इन्वेस्टमेंट्स के प्रवर्तकों में से एक है। आईसीडीआर के नियमों के अनुरूप तरजीही शेयरों की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तारीख 8 अप्रैल है। शुक्रवार, 5 अप्रैल को बाजार बंद होते समय वोडाफोन आइडिया के शेयर 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 13.32 रुपये प्रति शेयर पर रहे। निदेशक मंडल ने कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को मौजूदा 75 हजार करोड़ रुपये (70 हजार करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी और पांच हजार करोड़ रुपये की वरीयता शेयर पूंजी में विभाजित) से बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये (95 हजार करोड़ रुपये की इक्विटी और पांच हजार करोड़ रुपये की वरीयता शेयर पूंजी में विभाजित) करने की भी मंजूरी दी। निदेशक मंडल द्वारा पारित इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए बुधवार, 8 मई को कंपनी की एक असाधारण आम बैठक बुलाई गई है। इससे पहले, फरवरी में, वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के संयोजन के माध्यम से 20 हजार करोड़ रुपये तक के फंड जुटाने को मंजूरी दी थी। इक्विटी और ऋण के संयोजन के माध्यम से कंपनी लगभग 45 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। उसका बैंक कर्ज फिलहाल 4,500 करोड़ रुपये से कम है। इक्विटी और ऋण से जुटाई गई पूंजी का निवेश 4जी कवरेज, 5जी नेटवर्क रोलआउट और क्षमता विस्तार के महत्वपूर्ण में किया जायेगा।

सूर्यकुमार यादव के टीम में शामिल होने से मुंबई इंडियंस को बड़ी राहत

मुंबई(एजेंसी)। मुंबई इंडियंस को आईपीएल के इस सीजन में लगातार तीन हार के बाद उस समय मजबूती मिली जब धुआंधार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव सर्जरी के बाद फिट होकर टीम के साथ जुड़ गये। मुंबई को रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेलना है। मध्यक्रम के बल्लेबाज ने करीब एक घंटे बैटिंग की और मैदान में चारों तरफ अपने ट्रेडमार्क शॉट खेले। अभ्यास के दौरान मुख्य कोच मार्क बाउचर और बल्लेबाजी कोच कीरोन पोलार्ड ने भी उनसे बात की। जर्मनी के म्यूनिख में स्पोर्ट्स हर्निया के इलाज के लिए सर्जरी के बाद राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) ने मुंबई के 33 वर्षीय बल्लेबाज को खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया था। विश्व के सबसे प्रमुख टी20 बल्लेबाजों में से एक सूर्यकुमार, जो अपनी 360-डिग्री शॉर्ट-मेकिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, ने आखिरी बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट दिसंबर 2023 में भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के टी20ई दौरे के दौरान खेला था। जोहान्सबर्ग में तीसरे टी20 में क्षेत्ररक्षण करते समय उनके टखने में चोट लग गई, जहां उन्होंने 56 गेंदों में 100 रन बनाए, जो इस प्रारूप में उनका चौथा शतक था। उनकी कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज जीती थी।

हरित, सामाजिक और स्थिरता बांड: एनएसई का उद्योगव्यापी ज्ञान वृद्धि कार्यशालाओं के लिए आईएफसी और जलवायु बांड पहल के साथ सहयोग

मुंबई (एजेंसी)। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफइंडिया (एनएसई) ने भारतीय उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई अपनी उद्घाटन कार्यशालाओं को पूरा किया है। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम अलग-अलग स्थानों पर दो दिनों में आयोजित किए गए। पहला 3 अप्रैल, 2024 को मुंबई में और दूसरा 5 अप्रैल, 2024 को नई दिल्ली में किया गया। 'डीप डाइव इन ग्रीन, सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी (जीएसएस) बॉन्ड्स इश्यूएंस प्रोसेस' शीर्षक वाली ये दिनभर चलने वाली कार्यशालाएं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईएफसी),क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव (सीबीआई) के साथ एक संयुक्त प्रयास था। एक कार्यशाला से अधिक, इस पहल ने हमारे बाजारों और समाज के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए जीएसएस बांड की शक्ति का लाभ उठाने के लिए उद्योग के लीडरों और नीति निर्माताओं के लिए एक रैली बिंदु के रूप में कार्य किया। जीएसएस बांड के बढ़ते क्षेत्र के बारे में ज्ञान बढ़ाने और चर्चा को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया यह कार्यक्रम भारत में जलवायु वित्तपोषण अंतर को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इसने विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को संवाद में शामिल होने, अंतर्दृष्टि साझा करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से नवीन वित्तीय तंत्र का पता लगाने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान किया। प्रशिक्षण में वित्त, वास्तविक क्षेत्र और विभिन्न अन्य उद्योगों के प्रतिभागियों ने जीएसएस बांड जारी करने की जटिलताओं को समझा। वित्त और स्थिरता पर विशेषज्ञ के नेतृत्व वाले सत्रों में लेबल किए गए बांड ब्रह्मांड का अवलोकन, लेबल बांड जारी करने से पहले और बाद की प्रक्रिया और जीएसएस बांड जारी करने के लिए देश-विशिष्ट संदर्भ जैसे विषयों की गहन खोज की पेशकश की गई। भारत के स्थिरता एजेंडे को आगे बढ़ाने में जीएसएस बांड के महत्व पर जोर देते हुए, प्रशिक्षण ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण और संसाधन जुटाने में नवीन वित्तीय उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। केस स्टडीज और इंटरैक्टिव चर्चाओं के माध्यम से, उपस्थित लोगों ने विषयगत बांड जारी करने के परिदृश्य को कैसे नेविगेट किया जाए, और स्थायी वित्त में उभरते अवसरों का लाभ कैसे उठाया जाए, इस पर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। आईएफएससीआई के चेयरमैन श्री के राजारमन ने जीएसएस बांड के महत्व पर अपने व्यावहारिक संबोधन में जोर देकर कहा, जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती का समाधान करना सर्वोपरि है, और भारत में, इसके लिए हरित, सामाजिक और स्थिरता से जुड़े वित्तीय यंत्र को एक मजबूत अपनाने की आवश्यकता है।

Mobil 1 50वीं वर्षगांठ: आगे के लिए तैयार

रायपुर। ExxonMobil को वैश्विक बाजार में Mobil v™ मोटर ऑयल की शुरुआत करने के 50वीं वर्षगाँठ मनाने पर गर्व है। 2024 में ExxonMobil साझेदारी, मोटरस्पोर्ट्स और आभासी वास्तविकता में पहल की एक श्रृंखला के साथ Mobil v™ ब्रांड के अपने 50 साल के इतिहास का जश्न मनाएगा, जिनमें से प्रत्येक ब्रांड की विरासत और आने वाले समय की चीजों को उजागर करेगा। पहले पूर्ण सिंथेटिक ऑटोमोटिव मोटर ऑयल के रूप में शुरुआत करने और फिर Mobil v™ ब्रांडेड तेलों की श्रृंखला में विस्तार करने के बाद Mobil v™ ब्रांड गैस-संचालित और हाल ही में, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों के इंजन की सुरक्षा में सबसे आगे रहा है, और पिछले पाँच दशक से बेजोड़ गुणवत्ता और प्रदर्शन प्रदान कर रहा है। आज, Mobil v™ नवाचार, सहयोग और ग्राहकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ दुनिया का अग्रणी सिंथेटिक मोटर ऑयल ब्रांड है। इस प्रतिष्ठित ब्रांड के साथ, ExxonMobil इंजन सुरक्षा और प्रदर्शन के भविष्य को आकार देना जारी रखने के लिए उत्साहित है। इस महत्वपूर्ण पड़ाव वाले वर्ष में Mobil v™ के उत्सव को प्रेरित करने वाले केंद्रीय घटकों में से एक ब्रांड की यात्रा को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म है। ExxonMobil ने दर्शकों को Mobil v ब्रांड के विकास, प्रभावशाली सहयोग और तकनीकी उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी वीडियो के माध्यम से देने के लिए पूर्व फॉर्मूला 1 रेसर और मैकलेरन ड्राइवर डेविड कोल्टहार्ड के साथ साझेदारी की है।

दैनिक
विश्व परिवार
महानगर

www.dvpnews.in
vishwapariwarraipur@gmail.com

रायपुर, मंगलवार 09 अप्रैल 2024

मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया

रायपुर (विसं)। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में युवा बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं। उन्होंने मतदान करने और कराने का संकल्प लिया है। अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय बिलासपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों द्वारा कोनी में बड़ी संख्या में मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। कोनी में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों द्वारा शत प्रतिशत मतदान बिलासपुर का अभिमान नारे से समूचा बिलासपुर गूंज उठा। छात्रों ने स्वीप कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मतदाता जागरूकता का संदेश दिया।

संक्षिप्त समाचार

एसएमसी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में 8 से 13 अप्रैल तक नि:शुल्क ओपीडी

रायपुर (विश्व परिवार)। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर के एसएमसी सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक नि:शुल्क ओपीडी कैंप लगाया जा रहा है इस कैंप में समस्त विभाग में सीनियर डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी-नि:संतानता (आईवीएफ/ आईयूआई) विभाग, डॉ वैभव राज सिंह-जनरल एवं लप्रोस्कोनिक सर्जरी विभाग, डॉ करन सराफ-नेफ्रोलोजी विभाग (किडनी), डॉ घनश्याम सासपर्धी-न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी विभाग, डॉ. संजय कुमार अग्रवाल-गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग (पेट और लिवर की समस्या), डॉ. सौरभ खरे- हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपन विभाग, डॉ ममता दास- प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, यूरोलॉजी (मूत्र रोग), जनरल मेडिसिन में पूर्णत नि:शुल्क परामर्श दिया जाएगा। इसके अलावा रायपुर के अन्य प्रसिद्ध डॉक्टर्स की टीम भी अपनी सेवायें देगी। इस अवसर पर फार्मेसी, लैब टेस्ट, एवं रेडियोलॉजी में भी 20 प्रतिशत की विशेष छुट दी जायेगी। मरीज़ आने से पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन 9238175001/ 9238175002 में संपर्क कर करवा सकते है।

'पानी है तो जिंदगानी है...', श्रद्धा महिला मंडल द्वारा 'प्याऊ' का शुभारंभ किया गया

बिलासपुर (विश्व परिवार)। परहित व जनकल्याण के लिए समर्पित सेवा व सदभाव से अर्पित श्रद्धा महिला मंडल एसईसीएल बिलासपुर की अध्यक्षा श्रीमती पूनम मिश्रा ने अपने सहयोगियों श्रद्धा महिला मंडल की उपाध्याक्षाओ श्रीमती संगीता कापरी, श्रीमती अनीता बी. फ्रेंकलीन, श्रीमती सुजाता खमारी की गरिमामयी उपस्तिथि में 'पानी है....तो जिंदगानी है...' को सार्थक करते हुए राहगीरों के लिए इंदिरा विहार, बसंत विहार और नेहरू शताब्दी के चौराहों पर 'प्याऊ' का शुभारंभ दिनांक 8 अप्रैल 2024 को शरबत, चना और गुड़ का वितरण कर किया गया। इन जगहों पर शीतल पेय जल पूरे गर्मी भर उपलब्ध रहेगा। इस लोकोपकारी कार्य में श्रद्धा महिला मंडल की संयुक्त सचिव डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी श्रीमती पूनम सिंह, अपराजिता प्रभारी श्रीमती सालेश्टाइन साहू सहित कमेटी की ऊर्जावान सदस्यायें भी उपस्थित रहीं। 'परोपकाराय पुण्याय' के मंत्र को चरितार्थ करती श्रद्धा महिला मंडल का यह प्रयास समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है।

कलाकारी-अदाकारी की दुनिया में महत्वपूर्ण योदगान जय प्रकाश

रायपुर (विश्व परिवार)। छोटी सी उम्र में बड़े से बड़ा काम करने का शौक रखते है जय प्रकाश जी। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक बिजी रहते हैंअपना हर समय वो काम पे बिताना पसंद करते है। वह राज कुमार कॉलेज में जब करते है/ प्लस सिंगर है/ एक्टर है। डांस क्लास / संगीत क्लास/ प्लम्बर और पेंटिंग का ठेकेदार भी है। जय प्रकाश वो हर काम करना और सीखना चाहते है जिससे उसका और उसके परिवार का नाम हो। वैसे तो बहुत सारे गीत गाये है और बहुत से टेली फिल्मो में खुद ही एक्टर के रूप में कार्य किये हैं। जय प्रकाश जी बताते है कि उनको एक्टिंग का शौक बचपन से ही है वो बच्चो को राम लीला ड्रामा और भी बहुत कुछ कराते और खुद भी करते थे उनका यह अभ्याश आज बहुत की काम और नामी साबित हुआ। डंगनिया निवासी साहू पारा में रहने वाले जय प्रकाश जी से बातचीत में पता चला कि वो एक दिन बहुत बडे फ़िल्म स्टार बनना चाहते है और लोगो को बताना चाहते है कि गरीब पैदा होना किश्मत की बात है लेकिन अमीर बनना अपने हाथ मे है वो दिन रात कड़ी मेहनत करके पाई पाई जोड़ कर बहुत कुछ कर चुके है बस एक मौके के तलाश में है और वो दिन भी धुर नहीं जब जय प्रकाश का नाम एक सुपर स्टार से जोड़ा जाए।

महावीर जन्म कल्याणक 15 दिवसीय महोत्सव में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम, गीत, संगीत, क्विज, आर्ट वर्कशॉप, गेम, प्रतिगोगिताओ से सभी में काफी उत्साह

महावीर प्रसादी से रोजाना 2000 लोगो को मिल रहा भोजन, प्रभात फेरी से कर रहे समाज को जोड़ने का प्रयास

रायपुर (विश्व परिवार)। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव 2024 पर आयोजित की जाने वाले 15 दिवसीय प्रभात फेरी, धार्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य शिविर, महावीर प्रसादी भंडारा, आदि का आयोजन आज तीसरे दिन 8 अप्रैल को भी किया गया। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की शुरुवात सुबह 6.30 बजे प्रभात फेरी से की गई यह प्रभात फेरी सुंदर नगर रोड जगन्नाथ मंदिर अरिहंत ज्वेलर्स के पास से होते हुए श्री 1008 वासुपूज्य जिनालय डी. डी. नगर पर समाप्त हुई। यह प्रभात फेरी जिसके संयोजक एवं प्रभारी श्री साधुमार्गी जैन समता युवा संघ है उनके द्वारा इस प्रभात फेरी के माध्यम से सकल जैन समाज के सभी सदस्य को एक सूत्र में पिरोने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। जिससे महावीर की वाणी हर घर में पहुंचने का प्रयास कर रहे है। साथ ही आज ब्लड डोनेशन शिविर एवं स्वास्थ्य परीक्षण जांच का आयोजन भी प्रभात फेरी के पश्चात किया गया।सुबह 11 बजे महावीर प्रसादी भोग भंडारे का आयोजन गोल चौक स्थित साई मंदिर के पास डी. डी. नगर में किया गया जिसके लाभार्थी वालफोर्ट ग्रुप थे।आज विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमे दोपहर 2 बजे मेघ सीता भवन राजेंद्र नगर में उत्तर हमारे प्रश्न आपके स्पर्धा का आयोजन किया जिसमें अलग अलग ग्रुप बना कर 5 अराउंड खेले गए जिसमे प्रथम द्वितीय आने वालो को पुरस्कृत किया गया इस कार्यक्रम में कुसुम बेगानी, सरिता पारख, रेखा, मंजु, शानु, रीना, शिल्पा, दर्शना, मोनिका, आरती, आदि उपस्थित थी। दोपहर 2.30 सखी महिला मंडल शंकर नगर द्वारा संदीप भवन शंकर नगर में नावकार स्मरण महावीर की शरण का एवं तुमसे लगी लगन गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमे नवकार मंत्र की चैन बनाकर एवं गीत के वीर नाम बनाकर गीत तैयार करने की प्रतियोगिता आयोजित की गई सही जवाब देने वालो को प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिए गए इस कार्यक्रम में माया सेठिया, सरला जी टाटिया, संगीता जी नाहटा, राशि जी शाह उपस्थित थी। दोपहर 2.30 बजे धम्मतीथयरे क्विज टाइम का आयोजन गोल्ड एज क्लब अमलीडीह द्वारा किया गया जिसमे अलग अलग रिंग में विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से पहेली मात्रा गीत राउंड खेले गए जितने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया इस कार्यक्रम में कमला देवी चोपड़ा, उषा पारख, पुष्पा मालू उपस्थित थी।आज क्रियेटिव आर्ट वर्कशॉप आयोजन मल्ली महिला मंडल व शीतल बहु मंडल का आज समापन हुआ।तीन दिवसीय आयोजन में लगभग 100 बच्चों की सहभागिता दिखाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया।आज के ब्लड डोनेशन कैंप में लगभग आदि समाज के सदस्य अपना जीवन दाता ब्लड का डोनेशन कर रहे है जिस कार्यक्रम के संयोजक एवं प्रभारी श्री रायपुर श्रमण संघ, तेरापंथ युवक परिषद, श्री साधुमार्गी समता जैन युवा संघ है यह ब्लड डोनेशन शिविर एवं स्वास्थ्य परीक्षण भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव 2024 एवं आशीर्वाद ब्लड बैंक, शिवनाथ ब्लड बैंक, ब्लड सेंटर एम.एम.आई. एवं श्री रामकृष्ण हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। -**प्रणीत जैन**

झीरम मामले जाँच के नाम पर न तो भूपेश बघेल ने खुद कुछ किया और न ही केंद्र सरकार को जाँच में सहयोग किया : नितिन नबीन

5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही तो भी झीरम मामले में न्याय क्यों नहीं मिला ?

रायपुर (विश्व परिवार)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी व बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन ने झीरम कांड को लेकर प्रदेश कांग्रेस पर जमकर निशाना साधकर कांग्रेस और नक्सलियों के अंतर्संबंधों का खुलासा करने की मांग की है। श्री नबीन ने कहा कि आज झीरम मामले को लेकर कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है और अपने नेताओं की शहादत और उनके शोक संतप्त परिजनों की भावनाओं का मजाक बना रही है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने के बजाय कांग्रेसी अपनी पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कोई सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं, जो झीरम मामले के सबूत जेब में रखकर घूमने की डींगें हाँकते रहे और पूरे पाँच साल में इस मामले की जाँच के नाम पर न तो बघेल ने खुद कुछ किया और न ही केंद्र सरकार को जाँच में सहयोग किया।

भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी श्री नबीन ने सवाल दागा कि कांग्रेस पार्टी आखिर झीरम के दोषी पर इतनी मेहरबान क्यों है? आज के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने झीरम नक्सली हमले के तुरंत बाद क्या कहा, क्या किया, सब जानते हैं। अब राहुल गांधी जवाब दें कि 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही तो भी झीरम मामले में न्याय क्यों नहीं मिला? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधते हुए श्री नबीन ने कहा कि बैज को अगर सवाल करना है तो वे बीजेपी मंडल अध्यक्ष से सवाल करें, जिन्होंने उन्हें हराया। प्रधानमंत्री श्री मोदी से जब उनके नेता राहुल गांधी ही सवाल नहीं करते, तो फिर बैज क्या करेंगे? बैज बताएँ कि वह उन कवासी लखमा को जिताना चाहते हैं कि नहीं, जिनके झीरम कांड के मद्देनजर नार्को टेस्ट तक की मांग कांग्रेस खेमे से ही उठती रही है। श्री नबीन ने राहुल गांधी के 13 अप्रैल को होने वाले दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि महादेव सट्टा ऐप पर राहुल जवाब देना चाहिए। वादाखिलाफी करके प्रदेश के हर वर्ग को ठगने का जो काम किया, उस पर राहुल प्रदेश को जवाब दें।

नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के बस्तर दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी पूरी तत्परता के साथ कार्यकर्ता के रूप में चुनाव की कमान संभाले हैं। छत्तीसगढ़ की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित हैं। पिछले चुनाव की सभा में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और इस बार भी बस्तर में जनता-जनार्दन का प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति वैसा ही साथ और विश्वास देखने को मिल रहा है। मोदी की गारंटी में बस्तर के लिए जो घोषणाएं की थीं, वह पूरी हो रही हैं। भाजपा को प्रधानमंत्री के आगमन से बहुत लाभ हुआ है और जनता भी उत्साहित है। प्रधानमंत्री के बस्तर प्रवास के बाद चुनावी फिजाँ में भाजपा के प्रति अभूतपूर्व जनसमर्थन साफ दिखाई दे रहा है और प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत के साथ भाजपा 'अबकी बार 400 पार' के लक्ष्य को हासिल करने जा रही है।

गर्मी को देखते हुए जंगल सफारी की सैर करने का समय बदला, सुबह 7 से शाम 4 बजे तक होगी

रायपुर (आरएनएस)। भीषण गर्मी और वन्यप्राणियों को इससे होने वाली परेशानियों को देखते हुए जंगल सफारी के समय में बदलाव किया गया है। जंगल सफारी आने वाले पर्यटक अब सुबह 7 बजे से सफारी का आनंद ले सकेंगे। पहले जंगल सफारी खुलने का समय सुबह 9.30 बजे से था। वहीं अब सफारी ढाई घंटे पहले खुलेगा (7 बजे) और शाम 4 बजे तक लोग जंगल सफारी घूम पाएंगे। नया रायपुर स्थित नंदनवन जू और सफारी में मैमल्स और रेप्टाइल्स सहित कुल 37 वन्यजीव प्रजातियों का खूबसूरत आशियाना है । जंगल सफारी सफारी के डायरेक्टर धम्मशील गणवीर में बताया कि नंदनवन जंगल सफारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जंगल सफारी प्रबंधन ने वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन विकास में प्रयास किए जा रहे हैं।

नवा रायपुर के जंगल सफारी घूमने के लिए नॉन एसी बस का किराया 100 रुपए है। 12 वर्ष के बच्चों का किराया 25 रुपए है। एसी बस में सफर करने का किराया 150 रुपए है। 12 साल तक के बच्चों का किराया भी 50 रुपए है। जू में 12 साल से कम उम्र के बच्चों की एंट्री फ्री है।

श्री दिगम्बर जैन महिला मंडल मालवीय रोड द्वारा विभिन्न जनजागरुकता जानकारियां प्रदाय की गई

रायपुर (विश्व परिवार)। श्री 1008 महावीर भगवान के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री दिगम्बर जैन महिला मंडल मालवीय रोड की महिलाओं द्वारा लज्जास्पद Touch and Bad Touch एवम आज की समय में हो रहे Cyber Crime जैसे अपराधो और खतरो से कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए यह महत्वपूर्ण जानकारियां सभी जनो को दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभी बच्चो एवम बड़ो व साथ ही श्री दिगम्बर जैन कार्यकारिणी की सदस्य, महावीर जन्म कल्याणक समिति महिला मंडल की सभी महिलाओ ने अपनी सहभागिता दर्ज की। उक्त जानकारी महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती संध्या दिलीप जैन द्वारा प्रदाय की गई।

कैट दे रहा युवा व्यापारियों को पब्लिक स्पीकिंग एवं लीडरशिप ट्रेनिंग : युवा कैट

रायपुर (विश्व परिवार)। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की युवा इकाई युवा कैट छत्तीसगढ़ ने हर माह होने वाली युवाओं की बिज़नेस मीट का आयोजन किया गया। यह महत्वपूर्ण आयोजन चेम्बर भवन, बाम्बे मार्केट में संपन्न हुआ, इस महत्वपूर्ण बैठक में जहां राजधानी के युवा व्यापारियों ने उत्साह से भाग लिया इस पब्लिक स्पीकिंग एवं लीडरशिप ट्रेनिंग में मुख्य वक्ता के तौर पर ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर श्री दिनेश अग्रवाल जी ने युवा व्यापारियों को पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप स्किल्स के बारे में बारीकी से अवगत कराया।

युवा कैट के प्रदेश अध्यक्ष अवनीत सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष दीपक विधानी, महामंत्री अमर धिंगानी, कार्यकारी महामंत्री विक्रांत राठौर, कोषाध्यक्ष विजय पटेल ने बताया कि यह सेशन बड़ी संख्या में युवा व्यापारियों ने अच्छे से समझा और सराहा, हर व्यापार क्षेत्र में कैसे बात करने की शैली को अपनाकर अपना व्यापार और अपना स्किल डवलप कर मंच में भी पब्लिक स्पीच दे सकते है। उपस्थित युवाओं ने इस संगठन के परिवार में और नए युवा व्यापारियों को जोड़ने का संकल्प लिया ।

इस आयोजन में अवनीत सिंह, दीपक विधानी, विजय पटेल, विक्रांत राठौर, अमित मिनोचा, भास्कर साहू, रौनक पटेल, गिरिष पटेल, दिपेष पटेल, रमेष पटेल, हनीष एम. चैहान, संदीप गुप्ता, अमित गुप्ता, सामर्थ अग्रवाल, निखिल कुमार, रूपेष पटेल, रमेष खोडियार, राजेष बिहानी, दीपेष लालका, प्रकाष जोषी, हरदीप सिंह, सुरेष वासवानी, हरप्रीत सिंह, रतनदीप सिंह, हरसुख पटेल, नरेष माखीजा, हरीष विरानी, पारस दामानी, लोकेष सोढा, सतीष अग्रवाल, प्रकाष माखीजा, मोनेष साहू, अनिल अग्रवाल एवं सोपान अग्रवाल आदि बड़ी संख्या में युवा व्यापारी उपस्थित हुए।

गौरतलब है कि युवा कैट लगातार युवा व्यापारियों के लिए अनेक कार्यशाला का आयोजन कर रहा जिससे युवाओं में प्रगति, उद्यमिता और व्यापारियों के साथ अवगत होने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यह संगठन नवाचारों की ओर अग्रसर होता है और युवा उद्यमियों को प्रभावशाली नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने का संकल्प रखता है। युवा कैट की बिजनेस मीटिंग विगत 18 महीनो से लगातार प्रति माह हो रही है। जिसमें युवा व्यापारियों के द्वारा आपस में व्यापार का आदान-प्रदान करके एक दूसरे के व्यवसाय को समृद्ध किया जा रहा है इस मीटिंग के द्वारा प्रतिमाह युवा कैट युवा व्यवसायियो को जोड़ रहे हैं। और आपस में व्यापार करके एक दूसरे का व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर श्री दिनेष अग्रवाल ने कहा कि हम युवा कैट के सदस्यों को उनके प्रगतिशील कार्यों के लिए बधाई देते हैं और आगामी आयोजनों में उनकी सफलता की कामना करते हैं। हम समुदाय के एक-दूसरे के समर्थन में मिलकर साझा करें और युवा व्यापारियों की प्रगति और विकास को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित रहेंगे।

फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का संकल्प कर चुकी है जनता : भावना बोहरा

राजनांदगांव लोकसभा में भाजपा की जीत तय : विधायक

रायपुर (विश्व परिवार)। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा भी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों एवं कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। भावना बोहरा ने सोमवार को राजनांदगांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी संतोष पाण्डेय के पक्ष में कुकदुर मंडल अंतर्गत ग्राम ताईतिरनी, महिडबरा, बदना, कांदाबानी एवं दमगढ़ में जनसंपर्क किया और मोदी की गारंटी एवं विगत 10 वर्षों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं एवं विकास कार्यों को लेकर जनता से जनसंपर्क कर उन्हें मतदान करने के लिए जागरूक किया साथ ही कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन भी किया।

इस दौरान भावना बोहरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसे पूरा करने के लिए समर्पित भी रहती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही 100 दिनों के भीतर जिस निरंतरता एवं तत्परता से जनहित के निर्णय लिए गए हैं उसे हर कोई जनता है। महतारी वंदन योजना, आवास योजना, किसानों का दो वर्ष का बकाया बोनस, 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी जैसे अपने वादों को पूरा किया गया यही है मोदी जी की गारंटी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी किये गए ऐतिहासिक कार्यों को जनता भलीभांति जानती है, 500 वर्षों बाद अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर का निर्माण कर करोड़ों भक्तों की आस्था का सम्मान करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है।

भावना बोहरा ने आगे कहा कि राजनंदगांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद संतोष पाण्डेय जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई विकास कार्य किये हैं इसलिए पार्टी ने उनपर विश्वास कर पुन: प्रत्याशी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। हम सभी कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं और पूरी कर्मठता से लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रचंड जीत दिलाने के लिए संकल्पित भी है। भाजपा का प्रमुख उद्देश और लक्ष्य सबका-साथ, सबका विकास का है, इसी लक्ष्य व उद्देश को लेकर हम जनता के बीच जा रहें हैं और जनसंपर्क के दौरान जनता से हमें अपार समर्थन भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रत्येक वर्ग एवं व्यक्ति के लिए किये गए जनहित कार्यों से आज उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, किसान सम्मान निधि जैसे सैकड़ों योजनाओं ने आज उन्हें आर्थिक व मानसिक रूप से समृद्ध बनाने का कार्य किया है इसलिए जनता पुन: भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों के साथ जीत दिलाने का संकल्प कर चुकी है। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह व जोश चरम पर हैं। घर-घर जाकर जनता को जागरूक करने के साथ ही उन्हें मतदान करने के लिए कार्यकर्ता साथी भी पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों को पूरा कर रहें हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी पार्टी के पास कोई विषय ही नहीं है इसलिए वो जनता को बरगलाने का काम कर रहें हैं और बौखलाहट में अमर्यादित बयान दे रहें हैं। विगत पांच वर्षों में कांग्रेस के शासन में जो बदहाली और अराजकता छत्तीसगढ़ ने देखी है उसका परिणाम 2023 के चुनावों में जनता ने अपने मतदान से दिखा दिया है और जनता फिर से लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने का संकल्प कर लिया है। आज मोदी जी की गारंटी और विष्णु देव सरकार के नेतृत्व में हम विकसित भारत से विकसित छत्तीसगढ़ के पथ पर अग्रसर हैं और जनता भी इस विकास यात्रा में भाजपा के साथ है।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी प्रियेश कुमार जैन द्वारा मे. विश्व परिवार इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं.-421 सेक्टर-सी, सड़क नं.-7 उरला इंडस्ट्रीयल एरिया उरला, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ओलंपस जिम के पीछे, सेक्टर-1, शंकर नगर रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक : प्रदीप कुमार जैन, फोन नं. : 0771- 4017966, मो.- 9981924252 RNI.NO.CHHHIN/2013/50354